

ओ॒ष

सामवेदसंहितायाः ।

नवामार्गा

वर्णनुकम्पूची

अजमेरस्थ वैदिक यन्त्रालये

मुद्रिता

द्वितीयावृत्ति,

अर्द्धे कैल्पन्

सप्तशब्दाः १९७२९४९०१६

संस्कृ १६६७ वि०

सामवेदसंहितायाः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमसूची

अ

अक्षमपीपदन्तः

अग्निभिन्धानोः

पृष्ठांक.	प्र.	अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र.	अर्ध.		
३० अक्षमपीपदन्त	पू	६	१	५७ अग्निदूतं	ज	२	१
३८ अक्रान्तसमुद्रः	पू	६	१	१ अग्निदूतंवृणी	पू	१	१
४२ अक्रान्तसमुद्रः	उ	५	२	६ अग्निनरोदीधि	पू	१	२
७ अग्नमवृत्रहन्तम्	पू	१	२	८८ अग्निनरो	उ	६	१
८४ अग्नमहा	उ	५	१	८० अग्निवोदेवमधि	उ	५	१
१ अग्नआयाहि	पू	१	१	२ अग्निवोदृधन्त	पू	१	१
५० अग्नआयाहिकीत	उ	१	१	६५ अग्निवोदृधन्त	उ	३	१
६६ अग्नआयाहिग्नि	उ	७	२	६६ अग्निसूतुं	उ	७	२
४६ अग्नआयूषि	पू	६	३	६८ अग्निहित्वन्तुनो	उ	७	१
९३ अग्नआयूषि	उ	६	३	३४ अग्निहोतारंमन्ये	पू	५	३
१७ अग्नआयूषि	उ	७	१	११५ अग्निहोतारं	उ	६	१
६ अग्नओजिष्ठमाभर	पू	१	२	५६ अग्निनाग्निः	उ	२	२
३१ अग्नितमन्येयोवसुपू	पू	५	१	९७ अग्निमर्जिनहवी	उ	२	१
११० अग्नितमन्ये	उ	८	३	२ अग्निभिन्धानो	पू	१	१

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
४ अग्निमीलिप्वा	पू १ १	८ अग्नेयविष्टो	पू २ १
४४ अग्निमीले	पू ६ ३	२ अग्नेयुंच्चाहिये	पू १ १
४५ अग्निरस्मिङ्गन्म	पू ६ ३	८१ अग्नेयुंच्चाहि	उ ६ २
११७ अग्निरिन्द्राय	उ ६ २	२ अग्नेयक्षाणो	पू १ १
४ अग्निरुक्त्येपुरोहित	पू १ १	८ अग्नेवाजस्यगोमत्	पू २ १
६७ अग्निर्ज्ञपिःपद	उ ७ १	९१ अग्नेवाजस्य	उ ७ २
११७ अग्निर्जोगार	उ ८ २	१ अग्नेविवस्वदा	पू १ १
६० अग्निर्जुपतनो	उ ६ २	३ अग्नेविवस्वदूषसः	पू १ १
११७ अग्निर्ज्योतिः	उ ९ २	११४ अग्नेविवस्व	उ ९ १
२ अग्निर्मूर्द्धादिवः	पू १ १	६७ अग्नेविवेषिः	उ ७ १
९८ अग्निर्मूर्द्धा	उ ७ १	७० अग्नेसिन्धूनां	उ ४ १
११० अग्निर्हिंवाजिनं	उ ८ ३	८७ अग्नेसुखतमे	उ ६ १
१ अग्निर्हिंत्राणि	पू १ १	९० अग्नेस्तोमं	उ ६ २
९० अग्निर्हिंत्राणि	उ ८ २	१०३ अग्रेगोराजा	उ ७ ३
२ अग्निर्हित्तमेन	पू १ १	३६ अचिक्रददृष्टा	पू ६ १
१०९ अग्निःप्रियेषु	उ ८ २	७१ अचिक्रददृष्टा	उ ८ १
१०९ अग्निःप्रत्नेन	उ ८ ३	३३ अचेत्यग्निश्चिकि	पू ५ २
६८ अग्नेकेतु	उ ७ १	४० अचोदसोमो	पू ६ २
३ अग्नेजरितविं	पू १ १	५० अच्छाकोशशमधु	उ १ १
३२ अग्नेतमद्याश्वं	पू ५ १	८८ अच्छानोयाहि	उ ६ १
११४ अग्नेतमद्याश्व	उ ८ १	११ अच्छानःशीर	उ ७ १
११६ अग्नेतवश्चरो	उ ८ २	२७ अच्छावाइन्द्रमतगः	पू ४ १
३३ अग्नेत्वंनोअन्तम्	पू ५ २	५० अच्छासमुद्र	उ १ १
७६ अग्नेत्वंनो	उ ४ ४	९९ अच्छाहित्वासह	उ ७ १
५७ अग्नेदेवांहा	उ २ १	१७ अजीजनोअमृत	उ ७ ७
९८ अग्नेनक्षत्रं	उ ७ १	८८ अजोजनोहि	उ ६ ६
१७ अग्नेपदस्वप्ना	उ ७ १	४१ अज्ञतेव्यज्ञतेसमं	पू ६ ६
६७ अग्नेपादक	उ ७ १	१०३ अज्ञतेव्यज्ञते	उ ६ ६
३ अग्नेयुलमहां	पू १ १	१५ अतश्चिदिन्द्र	पू ६ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
५६ अतस्त्वारयिः	उ २ २	८० अध्यर्थोऽद्विभिः	च ५ १
१५ अतीहिमन्युपा	पू ३ १	२२ अध्यर्थोऽद्वावया	पू ४ १
१०७ अतोदेवाश्रवन्तु	उ ८ २	३२ अनश्वलतेरथं	पू ५ २
१११ अत्यायातम्	उ □ ३	३८ अनिज्ञनितहरि	पू □ १
७९ अत्याहियाना	उ ५ १	१०५ अनुतेषुष्मं	उ □ २ १
११५ अत्राविनेमि	उ ९ ३	६७ अनुत्वारोदसी	उ □ २ २
१० अन्नाहगोरमन्वत्	पू २ २	५४ अनुगत्तनस्यौ	उ □ १ २
६३ अन्नाहगोरम्	उ ३ ३	३७ अनुप्रत्यास	पू □ ६ १
७२ अथतेश्वन्तमाना	उ ४ १	३२ अनुहित्वासुतं	पू □ ६ १
२२ अदर्दरुत्स	पू ४ १	८८ अनुहित्वा	उ □ ६ १
४ अदर्शिणागतुविचमो	पू ३ १	६७ अनुपेगेमान्	उ □ ३ २
६७ अदर्शिणागतु	उ ७ १	४६ अन्तश्वरतिरोचना	पू □ ६ १
९९ अदाभ्यःपुर	उ ७ २	८८ अन्तश्वराति	उ □ ६ १
४६ अदश्वन्त्यकेतवो	पू ६ ३	९६ अधयदिमे	उ □ ७ १
१० अद्यनोदेवसवितः	पू २ १	९० अधात्वंहिनः	उ □ ७ २
९३ अद्याधाभ्यःव	उ ६ ३	१२० अन्धाअमित्रा	उ □ ६ ३
१०५ अधक्षपापरि	उ ८ १	७६ अपदनन्तोअरा	उ □ ६ १
४ अधमोश्यथ	पू १ १	३७ अपदनन्पवतेषुधो	पू □ ५ १
६५ अधत्विपीर्मा	उ ६ ३	८० अपदनन्पवते	उ □ ५ १
६८ अधधारयामध्ना	उ ३ २	३६ अपदनन्पवसेषुधः	पू □ ६ १
६७ अधयदिमे	उ ७ १	८१ अपदनन्पवसे	उ □ ६ १
९९ अधात्वंहि	उ ७ २	४६ अपत्येताययो	पू □ ६ ३
५९ अधाहिन्वान	उ २ २	८ अपत्येत्वजिनं	पू □ ६ ३
३० अधाइन्द्रिगिर्वणः	पू ५ १	७५ अपद्वारामती	उ □ ६ ३
५२ अधाहीन्द्र	उ १ १	१० अपादुषिष्ट्यन्धसः	पू □ २ १
११४ अधाह्यरनेकतो	उ १ १	२० अपामीदामप	उ □ २ १
३९ अधियदस्मिन्	पू ६ १	३६ अपामिवेदूष्मयः	उ □ २ १
७१ अधुक्तपियं	उ ४ १	६१ अपांतपातं	उ □ २ १
३६ अध्यर्थोऽद्विभिः	पू ६ १	१५ अपांफेनेन	उ □ २ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.
६ अपिवत्कदुवः	पू २ १	६६ अभिप्रयांसि	उ ७ २
२३ अपूर्वापुरु	पू ४ १	१६ अभिप्रवःसुराधसं पू ३ १	
६७ अप्साइन्ड्राय	उ ३ २	५७ अभिप्रवः	उ ८ १
११७ अप्सुरेतःशिश्रि	उ ६ २	४० अभिप्रियाणिपवते पू ६ २	
१११ अवोधिहोता	उ ८ ३	११२ अभिप्रियाणि	उ ८ ३
११३ अवोध्यग्रिर्व्य	उ ८ ३	५१ अभिप्रियाणि	उ १ १
६ अवोध्यग्रिःसमिधा पू	१ २	७९ अभिप्रियादिवः	उ ५ १
१११ अवोध्यनिः	उ ८ ३	७५ अभिप्रियंदिवः	उ ४ २
७० अभिक्रन्दन्	उ ४ १	८८ अभिन्नतानि	उ ३ २
७१ अभिगव्यानि	उ ४ १	६१ अभिन्नहीरन्	उ ३ २
६६ अभिगावो	उ ३ २	९१ अभिन्ना	उ ६ २
११९ अभिगोत्राणि	उ ८ ३	११७ अभिवाजीविश्व	उ ९ २
४९ अभितेमधुना	उ १ ?	९१ अभिवायुंवीत्यर्पा उ ६ २	
३४ अभित्यदेवं	पू ५ २	७८ अभिविश्रायन्	उ ५ १
२७ अभित्यमेषंपुरु	पू ४ २	१८ अभिवोतीर	पू ३ २
३८ अभित्यपृष्ठवृपणं	पू ६ २	६० अभिसोमासआ	उ ३ २
८० अभित्रिपृष्ठं	उ ६ २	३७ अभिसोमास	पू ६ १
१७ अभित्वांपूर्वपतिये पू	३ २	८१ अभिहिसत्य	उ ५ १
१०१ अभित्वापूर्व	उ ७ ३	४० अभीनवन्ते	पू ६ २
११ अभित्वाहृपभासुते पू	२ ३	११ अभीनोश्चर्पदिव्या उ ६ २	
५३ अभित्वाहृपभा	उ २ ३	४० अभीनोवानसात	पू ६ २
१६ अभित्वाश्चूर	उ ८ ३	८१ अभीनोवाज	उ ५ ४
५१ अभित्वाश्चूर	उ ८ ३	२२ अभीपतस्तद्	उ ५ ४
४२ अभिद्युम्नवृहत्	पू ५ २	५१ अभीपुणः	उ ९ ७
६८ अभिद्युम्नं	उ ३ २	६७ अभ्यभिहिश्वसा	उ ८ ७
५४ अभिद्युम्नानि	उ ३ २	६६ अभ्यर्पद्वहत्	उ ८ ४
११३ अभिद्युम्ना	उ ८ १	७१ अभ्यर्पस्वायुध	उ ४ ४
१२ अभिप्रगोपतिगिरे पू	२ २	७१ अभ्यार्पनप	उ ८ ७
६६ अभिप्रगोपति	उ ७ १	१०२ अभ्यारमिदद्यो	उ ८ ३

पृष्ठांक	प्र. अर्धे.	पृष्ठांक	प्र. अर्धे.
२९ अभ्रातृव्योअना	पू ६ १	५ = अयंपुनान	उ २ १
८६ अभ्रातृव्योअना	उ ६ २	४० अयंपूषारयिर्भगः	पू ६ २
११९ अमित्रेसनां	उ ६ ३	५ = अयंपूषारयि	उ २ १
६२ अमित्रहाविच	उ ६ ३	५१ अयंभराय	उ १ १
२६ अमीयेदेवास्थन	पू ४ २	६१ अयंयथान	उ ३ १
११६ अमीषांचित्तं	उ ९ ३	२२ अयंवामधु	उ ४ १
५ अयमयिःसुवीर्य	पू १ २	६३ अयंवामित्रा	उ ३ १
१२ अग्नुतेसमतसि	पू २ २	३७ अयंविचर्षणिर्हितं	पू ६ १
१०२ अयमुत्सम	उ ७ ३	६७ अयंविश्वाअभि	उ ३ १
५७ अयाचित्तोविपा	उ २ १	५४ अयंविश्वानिति	उ १ २
१३ अयाधियाचगव्य	पू २ २	६३ अयंसयोदिवः	उ ३ १
१०६ अयानिजग्नि	उ ८ ३	३३ अयंसहस्रान	पू ५ २
५५ अयापवस्त्वदेव	उ १ २	३३ अयंसहस्र	पू ६ २
३६ अयापवस्त्वधारया	पू ६ १	१०२ अयंसहस्रमूषि	उ ७ ३
८० अयापवस्त्व	उ ५ १	११८ अयंसहस्रपरि	उ ९ २
७३ अयापवापवस्त्वैना	उ ४ १	११४ अयंसहोता	उ ८ १
३६ अयापवापवस्त्वै	पू ६ १	५४ अयंसूर्यइवो	उ १ २
१०१ अयारुचाहरि	उ ७ ३	६४ अयंसोमइन्द्र	उ ६ ३
३४ अयारुचाहरिण्या	पू ५ २	६ अररयेनिहितो	पू १ २
३२ अयावाजदेव	पू ५ २	१४ अरन्तइन्द्रश्रवसे	पू ३ १
३६ अयावीतीपरि	पू ६ १	१०६ अरन्तइन्द्र	उ ८ २
७९ अयावीती	उ ५ १	९ अरमध्यगायत	पू २ १
३७ अयासोमसुकृत्य	पू ६ १	४३ अरुलुचदुषसः	पू ६ ३
४६ अयुक्तसप्त	पू ६ ३	६१ अरुसत्तत्	उ ३ २
८० अयुक्तसूर	उ ५ १	२६ अर्चतप्रार्चिता	पू ४ २
८७ अयुद्धिद्युधा	उ ५ २	१११ अर्चन्तिनारी	उ ५ १
११ अयंतइन्द्रसोपो	उ ५ २	३२ अर्चन्तर्यक्मरुतः	पू ५ २
५३ अयंतइन्द्र	उ ५ २	११२ अर्वाङ्गिविक्रो	उ ५ २
७३ अयंदक्षाय	उ ४ १	८५ अर्षानःसोम	उ ६ २

अहमिद्धिपितुः

[६]

अर्षासोमद्यमत्ता

पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.
३७ अर्षासोमद्यमत्ता	पू ६ २	३४ अपाव्यंशुर्मदा	पू ५ २
६७ अर्षासोमद्य	उ ३ २	६८ असिहीर	उ ३ २
८५ अत्तिरिति	उ ६ २	३५-असुक्तप्रवाजि	पू ६ १
८८ अवक्रीक्षणं	उ ६ १ १	७० असुक्तप्रवा	उ ८ २
५२ अवद्युतानः	उ ८ १ १	७५ असुग्रिन्दवः	उ ८ १
२३ अवद्यप्तो	उ ८ ४ १	१४ असुग्रिन्दते	उ ८ १
११९ अवसुष्टपरा	उ ८ ८ १	११५ असुग्रेदव	उ ८ १
७३ अवस्मर्दुहणा	उ ८ ४ १	११६ असौयासेना	उ ८ १
९० अवानोश्चेत्त	उ ७ १	१०७ अस्ताविमन्त्य	उ ८ १
७६ अव्यावरैःपरि	उ ८ १	१२ अस्तिसोमोत्त्वं	पू २ १
७५ अव्यावरे	उ ८ ४ २	११४ अस्तिसोमो	उ ८ १
११० अव्यावरिति	उ ८ ८ ३	३३ अस्तुश्रौपद्	पू ५ २
११० अश्वेवचिन्ना	उ ८ ८ ३	४२ अस्तम्भ्यत्वावसु	पू ५ २
५६ अश्वोनचक्र	उ ८ २ १	७१ अस्तम्भ्यमिन्द	उ ४ २
१६ अश्वौरथी	पू ४ २ १	७५ अस्तम्भ्यरोदसी	उ ४ २
१०१ अश्वनगीर्भी	उ ८ ७ ३	८३ अस्माअस्माइदं	उ ८ १
२ अश्वनत्वावार	पू १ १	११६ अस्माकमिन्दः	उ ८ १
१०५ अश्वनत्वावार	उ ८ ८ १	५४ अस्यप्रत्नामनुद्युतं	उ १ १
७६ अषाह्युग्रं	उ ८ ४ १	६० अस्येषा	उ ६ १
६५ असर्जिकलशां	उ ८ ३ १	३८ अस्येषाहेमना	पू ५ १
३६ असर्जिरथयो	पू ६ १ १	१०१ अस्यत्रतानि	उ ८ १
३९ असर्जिवक्षारथये	पू ६ १	१०१ अस्येदिन्द्रोवा	उ ७ १
२२ असाविदेवं	पू ४ १	५१ अस्येदिन्द्रोमदे	उ ७ १
६६ असाविसोम	उ ८ ३	९७ अहंस्वेन	उ ७ १
२५ असाविसोमिन्द्र	पू ४ १	४३ अहमस्मिप्रथम	पू ६ १
८४ असाविसोमो	उ ८ ५ १	११ अहमिद्धिपितुः	पू ३ १
४१ असाविसोमोत्त्वं	पू ६ १	९६ अहमिद्धिपितुः	उ ७ १
१०८ असाव्यंशुर्मदा	उ ८ १		

आ

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
२६ आगन्तामारि	पू ५ १	२१ आत्वारेवसव	पू ४ १
३१ आर्गिननस्व	पू ६ १	५० आत्वाग्रहयुजा	उ १ १
६८ आशेकेतुर्विशा	उ ७ १	८६ आत्वारथे	उ ६ २
६८ आग्नेनक्त्र	उ ७ १	११३ आत्वारथं	उ ९ १
६८ आग्नेस्थूररयं	उ ७ १	२५ आत्वारथंयथो	पू ४ २
७२ आधत्वार्णा	उ ४ १	१४ आत्वाविशनित्वन्दपू	पू ३ १
५४ आधागपद्यदि	उ १ २	१०६ आत्वाविशन्तु	उ ८ २
८५ आधयेअग्निं	उ ५ २	२४ आत्वासखायः	पू ४ १
१० आधायेअग्निं	पू २ १	८६ आत्वासहस्र	उ ६ २
८७ आजागृषि	उ ६ १	१७ आत्वासहस्र	पू ३ २
८९ आजामिरक्ते	उ ६ २	२२ आत्वासोमस्य	पू ४ १
५ आजुहोताहविष्या	पू १ २	६३ आत्वेत्वानिषदते	उ २ २
६८ आतिष्टृत्र	उ ३ २	११ आत्वेत्वानिषी	पू २ २
५३ आतूनइन्द्र	उ १ २	६० आदहस्वधा	उ २ २
११ आतूनइन्द्रच्छमन्तं	पू २ २	२ आदित्प्रवस्य	पू १ १
१२ आतूनइन्द्रवृत्र	पू २ २	७४ आदित्यैरिन्द्रः	उ ४ १
५३ आतूनइन्द्र	उ १ २	६६ आदीकेचित्	उ ७ १
६६ आतेअग्न	उ ३ २	६८ आदीमश्च	उ ३ २
३१ आतेअग्निधी	पू ५ १	५५ आदीनित्स्य	उ १ २
६६ आतेअग्नश्च	उ ३ २	५५ आदीहंसोयथा	उ १ २
३६ आतेदक्षं	पू ५ १	५९ आनइन्दोशा	उ २ २
७५ आतेदक्षं	उ ४ ४	९२ आनस्तगन्तु	उ २ २
१ आतेवत्सोपनो	पू १ १	९८ आनोअयोरयं	उ ७ १
७६ आतेवत्सो	उ ४ ४	३ आनोअश्वेवयो	पू २ १
२५ आत्वागिरो	पू ४ १	६८ आनोअयोसुचे	उ ७ १
११५ आत्वाग्रावा	उ १ १	६६ आनोभज्	उ ७ १

पुष्टांक.	म. अर्ध.	पुष्टांक.	म. अर्ध.
५० आनोमित्रा	उ १ १	७२ आयद्वःशत	उ ४ १
१६ आनोमित्रावरुणा	पू ३ १	७१ आययोर्स्त्रिशत	उ ४ १
११ आनोरत्नानि	उ त ३	३२ आयाहिवनसा	पू ५ २
२५ आनोवयोवयः	पू ४ २	१३ आयाहिसुपुमा	पू २ २
१८ आनोविश्वासु	पू ३ २	५० आयाहिसुपुमा	उ १ १
४६ आनोविश्वासु	उ त ७ २	२६ आयाहयमिन्दवे	पू ५ १
८५ आनःसुतास	उ ५ २	१७ आयाहुपनःसुतं	पू ३ १
७६ आनःसोमसंयतं	उ ४ २	६४ आयोनिमरुणो	उ ३ १
६९ आनःसोमसहो	उ २ २	११३ आयःपुरुनार्मि	उ ३ २
६० आपग्राथमहिना	उ ३ २	७५ आरथिमासुचे	उ ४ १
६३ आपवगान	उ ३ १	१५ आवृद्धंक्रिविं	पू ४ १
७९ आपवगानधार	उ ५ १	७१ आवच्यस्वभाषि	उ ४ १
७६ आपवस्वमदिन्त	उ ५ १	६८ आवच्यस्वसुदक्ष	उ ३ २
६३ आपवस्वमही	उ ३ १	६१ आवसतेम	उ २ १
३६ आपवस्वसह	उ ५ १	३२ आविर्यथ्या	पू ५ १
५६ आपवस्वसुवीर्यं	उ ५ १	६३ आविवासन्	उ ३ १
७४ आपानासोविव	उ ४ २	३६ आविशनकलशं	पू ६ १
११७ आपोहिष्ठाययो	उ ५ २	५ आवोराजानमध्व	पू १ २
४४ आपागाद्भद्रा	पू ५ १	६१ आवेसतै	उ २ १
१५ आवुन्दवृत्रहाददे	पू ३ १	६३ आशुरपृवृहन्मते	उ १ १
१११ आभाल्यग्निः	उ ८ १	११० आशुशिशानो	उ ८ १
४८ आभिष्टयभि	महा	९४ आसुतेसिञ्चत	उ ६ १
६९ आभेसुश्नद्	उ ३ १	४२ आसोतापरिसिञ्च	पू ५ १
७५ आमन्द्रमावरे	उ ४ १	६० आसोतापरि	उ ५ १
१७ आमन्द्रैरिन्द्रहरि	पू ३ १	३७ आसोमस्वानोअ	पू ५ १
१०६ आमन्द्रैरिन्द्र	उ ८ १	१०८ आसोमस्वानो	उ ८ १
९१ आमसुपक	उ ६ १	४० आहर्यताय	उ ५ १
७५ आमित्रेवरुणे	उ ४ १	५५ आहर्यतोअर्जुनो	उ १ १
४६ आयज्ञापृक्षि	पू ६ १	८६ आहरयःसद्य	उ १ १
८८ आयज्ञा	उ ६ १		

१७८

पृष्ठांक.	म. अर्ध.	पृष्ठांक.	म. अर्ध.
५३ इच्छन्तिदेवाः	उ १ २	५२ इन्द्रइनोमहो	उ १ २
६३ इच्छन्नशस्य	उ ३ २	४३ इन्द्रइद्यर्योःसचा	उ ६ २
६ इड्डामनेपुरुदंसं	पू १ २	५७ इन्द्रइद्यर्योः	उ २ २
१६ इतजटीवा	पू ३ २	१४ इन्द्रइपेदातुन	उ २ २
७ इतएतउदारहन्	पू १ २	१५ इन्द्रउक्थेभिर्मान	उ २ २
३० इत्थाहिसोम	पू ७ १	१६ इन्द्रक्रतुन	उ २ २
५ इदंतएकंपर	पू १ २	१३ इन्द्रक्रतुनआभर	उ २ २
६ इदंवसोसुतमन्यः	पू २ १	६५ इन्द्रजटरनव्यं	उ २ २
५३ इदंवसोसुतं	उ १ २	६५ इन्द्रजुषस्व	उ २ २
७२ इदंवांमदिरं	उ ४ २	४३ इन्द्रजयेष्टुनआभर	पू २ २
१५ इदंविष्णुर्विचक्रमे	पू ३ २	१८ इन्द्रक्रतुनआ	पू २ २
३०७ इदंविष्णुर्विच	उ ८ २	३० इन्द्रतुभ्यमिद्	पू २ २
६३ इदंश्रेष्ठञ्ज्योतिषां	उ ६ २	१८ इन्द्रिधातु	पू २ २
११ इदंश्रेष्ठञ्ज्योति	उ ८ २	१९ इन्द्रनेदीय	पू २ २
११ इदंहन्वोजसा	पू २ २	५० इन्द्रमर्शिनकवि	पू २ २
५३ इदंहन्वोज	उ १ २	४१ इन्द्रमच्छसुता	पू २ २
६४ इनोराजन्नरतिः	उ ७ २	५१ इन्द्रमच्छसुताइमे	पू २ २
६१ इन्दुरिन्द्राय	उ २ २	१४ इन्द्रमिद्गायिनो	पू २ २
३९ इन्दुर्वाजीपवते	पू ६ २	५७ इन्द्रमिद्गा	उ २ २
६८ इन्दुर्वाजीपव	उ ३ २	१७ इन्द्रमिहेवता	पू २ २
३२ इन्दुःपविष्ठचार	पू ५ १	१०१ इन्द्रमिहेवतातय	उ २ २
३५ इन्दुःपविष्ठचेतनः	पू ६ २	६८ इन्द्रमिद्गरीवह	उ २ २
६७ इन्दोयथातव	उ ३ २	८१ इन्द्रमीशानं	उ २ २
६६ इन्दोयदद्रिभिः	उ ६ २	५७ इन्द्रवाजेपु	उ २ १
११९ इन्द्रआताक्रेता	उ ८ २		

पृष्ठांक.	म. अर्ध.	पृष्ठांक.	म. अर्ध.
१४ इन्द्रवाजेषु नो	पू ६ क	६५ इन्द्रायतनं	ल ३ १
० इन्द्रशुद्धोन	सू ३ २	३७ इन्द्रायपवते	ल ४ १
० इन्द्रशुद्धोहिनो	सू ६ २	११ इन्द्रायमद्वनेसुतं	पू २ २
१ इन्द्रश्ववायवेषां	उ ८ ३	५३ इन्द्रायमद्वने	ल १ २
१ इन्द्रसुतेषु सोमे	पू ४ २	२८ इन्द्रायसामगाय	पू ४ २
१ इन्द्रसुतेषु	ल १ २	६५ इन्द्रायसाम	ल ८ २
१ इन्द्रस्तुरापाह	च ३ २	१०७ इन्द्रायसोम	ल ८ २
१ इन्द्रस्तेसोम	स ३ २	८५ इन्द्रायसोमपातये	ल ६ २
१०० इन्द्रस्थातः	उ ८ ३	६३ इन्द्रायसोमपा	ल ६ ३
४५ इन्द्रस्य नुवीर्याणि	पू ८ २	४१ इन्द्रायसोमसोमसु	पू ६ २
११६ इन्द्रस्य वाह	उ ८ ३	७५ इन्द्रायाहिचित्रभा	ल ४ २
११६ इन्द्रस्य वृष्णो	उ ८ ४	७५ इन्द्रायाहितूजा	ल ४ २
८ इन्द्रस्य सोम	उ ५	७५ इन्द्रायाहिधिये	ल ५ २
७ इन्द्रस्य सोमराघ	उ ८ ५	३४ इन्द्रायेन्दोमरुत्व	ल ५ २
१० इन्द्रागनीश्चिपसः	उ ८ ८	७२ इन्द्रायेन्दो	ल ५ २
६ इन्द्रागनीश्चिपसः	पू ३ ६	५७ इन्द्रेश्चनानमो	ल २ २
१० इन्द्रागनीश्चिपसः	पू ४ ६	६० इन्द्रेणासाहि	ल २ २
८ इन्द्रागनीश्चागतं	उ १ १	१२ इन्द्रेहिस्तस्यन्धसो	पू २ २
८ इन्द्रागनीजरितुः	उ १ १	१४ इन्द्रोश्चक्रमहस्यं	पू २ २
१० इन्द्रागनीतविषा	उ ८	१२ इन्द्रोदधीचोद्दस्य	ल २ २
१० इन्द्रागनीतविषाणि	उ ७	६३ इन्द्रोदधीचो	ल २ २
१० इन्द्रागनीनवति	उ ८ ८	५७ इन्द्रोदीर्घाय	ल २ २
१०१ इन्द्रागनीनवति	उ ८ ७	३० इन्द्रोमदायवाहृषे	पू २ २
६५ इन्द्रागनीयुवां	उ ३ ३	६८ इन्द्रोमदाय	उ ३ २
१० इन्द्रागनीरोचना	उ ८ ८	१०१ इन्द्रोमन्हरोदसी	उ ७ २
१० इन्द्रानुपूषणावयं	पू ३ ३	४३ इन्द्रोराजा	पू ६ २
२१ इन्द्रापवताहृषता	पू ४ ४	३३ इन्द्रोविश्वस्य	पू ५ २
२६ इन्द्रायगाव	उ ७ २	५४ इन्द्रंतंशुभं	उ ३ २
२४ इन्द्रायगिरोञ्जनि	पू ४	४८ इन्द्रधनस्य सा	महा०

पृष्ठांक.	प्र.	अर्ध	पृष्ठांक.	प्र.	अर्ध		
२३ इन्द्रं नरो नेम	पू	४	१	७५ इमा नुकं पुव	उ	४	१
९ इन्द्रं वयं महाधन	पू	२	१	२३ इमा नुकं ष्वाना सी	पू	५	२
११४ इन्द्रं वाणीरतु	उ	६	१	१३ इमा स्तं इन्द्रं पूर्णयो	पू	२	२
२५ इन्द्रं विश्वाश्वानी	पू	४	२	२७ इमेति इन्द्रे तेवयं	पू	४	२
५८ इन्द्रं विश्वाश्वानी वृथ	उ	२	१	१५ इमेति इन्द्रसोमाः	पू	३	१
१०४ इन्द्रं वो विभ	उ	८	१	१०७ इमेहिते ग्रहा	उ	८	२
८० इन्द्रः सदागने	उ	५	१	१०१ ह्यं मेव रुण थुधी	उ	७	२
५ इन्द्ये राजासमयो	पू	१	२	४४ इमं वृष्टपरं	पू	६	२
२१ इम इन्द्रमदाय	पू	४	१	५ इमं स्तोममर्हते	पू	१	२
२१ इग इन्द्राय मुनिरे	पू	४	१	७१ इमं स्तोममर्हते	उ	४	१
१० इम उत्त्वा विचक्षते	पू	२	१	६३ इयं वायस्य	उ	३	१
२५ इम मिन्द्रसुतं	पू	४	२	११६ इरज्य अग्ने	उ	८	२
६५ इम मिन्द्रसुतं	उ	३	१	३७ इपेपवस्थारया	पू	६	१
२ इम मूल्यमस्माकं	पू	१	१	५६ इपेपवस्थ	उ	२	२
१६ इम मूल्यम	उ	७	१	६३ इपेपवस्थ	उ	३	१
१० इमा उत्त्वा पुरुषसो	पू	२	२	६७ इपंतो कायना	उ	३	२
१७ इमा उत्त्वा पुरु	पू	३	२	११६ इष्टकर्ता रं	उ	४	२
१०२ इमा उत्त्वा पुरु	उ	७	३	११ इष्टाहोत्राश्वसृक्षत	पू	२	२
१४ इमा उत्त्वा सुते	पू	३	१	५३ इहत्वा गोपरी	उ	१	
५४ इमा उत्त्वा दिवि	उ	१	२	१० इहेवश्च एषा	पू	२	
२३ इमा उत्त्वा दिविष्ट्य	पू	४	१				

१०८

१२ ईद्यन्तीरप	पू	३	२	६८ ईशीयेवार्यस्य	उ	७
८८ ईडिष्वा हिमती	पू	२	१	४८ ईशोहिशकस्तमूत	महा०	
६८ ईडिन्योनयस्यः	उ	७	१	४८ ईशोहिशकः	महा०	
६६ ईशान इमा	उ	३	२			

उ

पूर्णांकः	म्. अर्थः	पूर्णांकः	म्. अर्थः
१५. उक्तथञ्चनशस्य	पू ३ १	११४ उतोन्वस्यजोष	उ ६ १
११५ उक्तथञ्चन	उ ६ १	१४ उत्त्वापदन्तुसोमा	पू ३ १
२६ उक्तथमिद्रायशंस्यं	पू ४ २	८७ उत्त्वायदन्तु	उ ६ १
८८ उत्त्वामियेति	उ ६ १	८९ उदरनेभारत	उ ६ २
६० उत्त्वाविधनिना	उ २ २	९८ उदरनेशुचय	उ ७ १
३४ उत्त्वातेजातमन्य	पू ६ २	१११ उदपत्तवरुणा	उ ८ ३
५० उत्त्वातेजात	उ ३ १	४३ उदुत्तमवरुण	पू ६ ३
८० उत्त्वाहरितो	उ ५ १	१७ उदुत्येमधुमत्त	पू ३ २
७५ उदरनपना	उ ४ २	८८ उदुत्येषु	उ ६ १
६७ उत्तनोगोविषि	उ ३ ३	१५ उदुत्येसूनवो	पू ३ १
७१ उत्तनोगोपती	उ ४ २	३ उदुत्येजातवेद	पू १ १
१०३ उत्तनोगोपाणि	उ ७ ३	२५ उदुव्रह्मा	पू ४ १
७९ उत्तनोवाजसा	उ ५ १	२३ उदुव्रह्मारै	पू ४ १
९३ उत्तनःप्रिया	उ ६ ३	५४ उदुसियाःसृजते	उ १ २
६१ उत्तप्रिप्यक्षय	उ ६ २	१०५ उद्गाआजदहिरो	उ ८ १
८६ उत्तप्रवन्तु	उ ६ २	९ उद्गैदभिशुता	पू २ १
११७ उत्तवातपिता	उ ८ २	६३ उद्गैदभि	उ ६ ३
११० उत्तसखास्य	उ ८ ३	८० उद्यस्यते	उ ५ १
८ उत्तस्यानोदिवा	पू ३ १	४६ उद्यामेधिरजः	पू ३ ३
८७ उत्तस्सराजो	उ ६ १	११६ उद्धर्पयमधवन्	उ ९ ३
१११ उत्तायातं	उ ८ ३	१०६ उद्यवायाँ	उ ८ २
८७ उत्तिष्ठत्वोजसा	उ ३ २	६८ उपत्रितस्य	उ ३ २
६९ उत्तेवृहतो	उ ७ २	५२ उपत्वाकर्मन्	उ ३ १
७९ उत्तेशुव्यास	उ ५ १	२ उपत्वाग्नेदिवे	पू १ १
१०९ उत्तेशुणासो	उ ८ ३	२ उपत्वाजामयो	पू १ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
१०० उपत्वाजामयो	उ ७ २	२५ उपोषुजातं	उ ५ २
६६ उपत्वाजुह्वो	उ ७ २	५४ उपोषुजातं	उ १ २
१०८ उपत्वारणव	उ ८ ३	२० उपोषुशृणुहि	पू ५ १
११ उपनोहरिभिःसुतं	पू २ २	१७ उपोहरीणां	उ ७ १
११४ उपनोहरिभिः	उ ९ १	८० उभयंशृणवञ्च	उ ६ १
७२ उपनःसवना	उ ४ १	६२ उभयतःपव	उ ३ १
१०२ उपनःसूनवो	उ ७ ३	२७ उभेयदिन्द्रोदसी	पू ४ २
३२ उपमन्त्रेष्ठुमति	पू ५ २	७३ उभेयदिन्द्र	उ ४ १
८६ उपप्रयन्तो	उ ६ ३	२० उभयंशृण	पू ३ २
५४ उपशिक्षापत	उ १ २	६० उरुगच्छुतिः	उ ६ २
६१ उपस्थकेषु	उ ६ ३	११४ उरुच्यच्छे	उ ९ १
१० उपहरेगरीणां	पू २ १	६० उरुशंसा	उ २ १
४९ उपास्मैगायता	उ १ १	११० उपस्तचित्रं	उ ८ ३
५४ उपास्मैगायता	उ १ २	३३ उपाश्रापस्वमु	पू ५ २
८८ उपोषतिःपृच्यते	उ ६ १	११० उपोश्रापद्वगोम	उ ८ ३
३६ उपोषुजातमपुरं	पू ६ १	७१ उस्त्रावेदवस्था	उ ४ १

ॐ

३३ ऊर्जामित्रो	पू ६ २	४ ऊर्जाषुण	पू १ २
११६ ऊर्जोनपाज्ञात	उ ९ २	१०२ ऊर्जस्तिष्ठान	उ ७ ३
५२ ऊर्जोनपातंसहिं	उ १ १	११८ ऊर्जोर्गन्धव्रो	उ ८ २
१०६ ऊर्जोनपातमा	उ ८ ३		

ऋत

२६ ऋत्वंसामयजा	पू ४ २	१४ ऋतपृतेन	उ ६ ३
१५ ऋतुर्नीतिनो	पू ३ १	५१ ऋतस्यजिहापव	उ १ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.
११६ ऋतावानंपाहि	उ ९ २	५० ऋधक्सोम	उ १ १
१०८ ऋतावानवैश्वा	उ ८ २	७८ ऋषिमनाय	उ ५ १
६६ ऋतेनमित्रा	उ २ २	५१ ऋषिर्विष्पः	उ १ १
५७ ऋतेनयाहृता	उ २ १		

ए

७२ एतमुत्पद्धा	उ ४ १	२९ एन्द्रनोगधिप्रिय	पू ५ १
८३ एतमुत्पद्धा	उ ६ २	८१ एन्द्रनोगधि	उ ५ १
४२ एतमुत्पद्धच्युतं पू ६	२	१६ एन्द्रपृज्ञकासु	पू ३ १
१११ एताऽत्याचापसः	उ ८ ३	११९ एन्द्रयाहि	उ ६ १
६६ एतेऽस्यग्रमिन्द्वा।	उ ८ २	२५ एन्द्रयाहिहारि	पू ४ २
७८ एतेसोमाश्रमि	उ ५ १	३३ एन्द्रयायुपनः	पू ५ २
७१ एतेसोमाश्रस्तु	उ ४ १	६ एन्द्रसानसिंर्धि	पू २ १
२८ एतोन्विन्द्रस्तवा	पू ४ २	११४ एतिनोऽत्रकैः	उ ९ १
२५ एतोन्विन्द्रस्तवाम्	पू ४ २	१२ एमनंश्येतन	उ ६ २
१० एतोन्विन्द्रस्तवाम्	उ ६ २	६० एवानःसोम	उ २ १
८३ एतंत्वंहरितो	उ ५ २	५७ एवापवस्थ	उ २ १
८३ एतंत्वितस्य	उ ५ २	८८ एवाश्वताय	उ ६ १
८२ एतंपूजन्ति	उ ५ २	६८ एवारातिस्तुष्टि	उ २ १
२८ एदुमधोर्मदिन्त	पू ४ २	४८ एवाहिशक्रो	महा
१०७ एदुमधोर्मदिन्दि	उ ८ २	१६ एवाश्वसिवीर	पू ३ १
५० एनाविशा	उ १ १	५८ एवाश्वसि	उ १ १
४३ एनाविशान्यर्य	पू ६ २	४८ एवाश्वेष	महा
४१ एनावोअर्णिनमम्	पू १ १	८३ एषइन्द्राय	उ ५ २
५४ एनावोअर्णिन	उ १ २	८२ एषउस्यपुरु	उ ५ २
२८ एन्दुमिन्द्रायसिज्ज्वपू	४ २	८३ एषउस्यहृषा	उ ५ २
१७ एन्दुमिन्द्राय	उ ७ १	८३ एषकविभिरि	उ ५ २

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
८३ एषगव्युः	उ ५ २	८२ एषविष्वेशभि	उ ५ २
८२ एषदिवंविधा	उ ५ २	८२ एषविभानि	उ ५ २
८२ एषदिवंव्यास	उ ५ २	८३ एषवृपा	उ ५ २
८२ एषदेवोअमर्त्यः	उ ५ २	८३ एषशुष्म्यदभ्यः	उ ५ २
८२ एषदेवोविप	उ ५ २	८३ एषशुष्म्यसि	उ ५ २
८२ एषदेवोरथ	उ ५ २	८२ एषशृङ्गाणि	उ ५ २
८३ एषदेवःशुभा	उ ५ २	८३ एषसूर्यमरो	उ ५ २
८२ एषधिया	उ ५ २	८३ एषसूर्येण	उ ५ २
८३ एषनृभिर्विनी	उ ५ २	८८ एषस्यतेष्वु	पू ६ १
८३ एषपवित्रे	उ ५ २	८२ एषस्यधरयासुतो पू	६ २
८२ एषपुरुधिया	उ ५ २	८३ एषस्यपीतयं	उ ६ २
४० एषप्रकाशे	पू ६ २	८३ एषस्यमयो	उ ५ २
५४ एषप्रत्वन	उ १ २	८३ एषस्यमानुषी	उ ५ २
५४ एषप्रत्वेनजन्मना	उ १ २	८२ एषहितोविनी	उ ५ २
८२ एषप्रत्वेन	उ ५ २	१२ एषोऽपात्रपूर्व्या	पू २ २
११३ एषव्रह्माय	उ ६ १	११० एषोऽपा	उ ८ २
३२ एषव्रह्मायश्चत्विय पू	पू २	११० एहदेवामयो	उ ८ २
८२ एषवृक्षिभिः	उ ५ २	१०६ एहहरीव्रह्म	उ ८ २
८३ एषवसूनि	उ ५ २	५२ एत्यूषुव्रवाणिते	उ १ १
८३ एषवाजीहतो	उ ५ २	१ एत्यूषुब्रवाणि	पू १ १

ऐ

११४ ऐभिर्देव उ ८ १

ओ

१२ ओजस्तदस्यति पू २ २ | १०६ ओजस्तदस्य उ ८ १

पृष्ठांक

प्र. अर्थ.

पृष्ठांक.

प्र. अर्थ.

६६ ओमेसशचन्द्र

उ ३ २

ओ

२ ओर्वाभृगु

पू १ १

क

१३ कहमनहुयीज्ञा	पू	२	२	२४ कविवैथस्यापये	उ	५	२
१०८ कईवेदसुते	उ	८	२	२० कवीनोमित्रा	उ	२	२
२१ कईवेदसुते	पू	४	१	२६ कश्यपश्यस्वर्विदो	पू	४	२
३२ कईव्यक्तानरः	पू	६	१	३ कस्थनूनंपरी	पू	१	१
१११ कङ्कासुपर्णा	उ	९	३	१६ कस्तमिन्द्रत्वा	पू	३	२
२४ करवाइन्द्रयद	उ	५	२	१०७ कस्तमिन्द्रत्वावस	उ	८	२
८८ करवाइवभृगवः	उ	६	१	६८ कस्तेजामिः	उ	७	२
६० करवेभिर्वृण्ण	उ	३	२	५१ कस्त्वासत्यो	उ	१	१
२१ कदाचनस्त्री	पू	४	१	४ कायमानोवना	पू	१	१
२६ कदायर्त्ति	उ	५	२	१०४ किमित्तोविष्णो	उ	८	१
३६ कदावसेस्तोत्रं	पू	३	१	१०७ कुवित्सस्यप्रहि	उ	८	१
१५ कदुप्रचेतसेमहे	पू	३	१	१०६ कुवित्सुनेगवि	उ	८	१
३८ कनिकनित्वहरि	पू	५	१	२२ कुष्टाःकोवाम	पू	४	१
९९ कथातेऽग्ने	उ	७	२	५६ कुवित्सोवारिवो	उ	२	२
१०१ कथात्वनज्ञत्वा	उ	७	३	६६ कुण्णांयदेनीं	उ	७	२
१२ कथानश्चवद्वाभुवू	२	२		१४ केतुकुरुक्षेत	उ	६	३
५१ कथानश्चित्र	उ	१	१	२६ केतुकुरुक्षेत्विन्	उ	३	२
३ कवियमिमुप	पू	१	१	२४ कोत्रिद्युक्ते	पू	४	१
८१ कविमित्रप्रशंस्यं	उ	५	१	३१ क्रत्वामहाँश्चनु	पू	५	१

पृष्ठांक.	म. अर्ध.	पृष्ठांक.	म. अर्ध.
६६ क्रीहुर्मखोन	उ ३ २	१८ क्षेयथके	पू ३ २
६६ क्रन्दन्दोवोन	उ ३ २	१०० चपोराजन्मत	उ ७ २
१० कास्यवृप्तभोयुवा	पू २ १		

ग

१०९ गम्भीरांडधी	उ ८ ३	८० गिरावज्जोन	उ ५ २
९० गर्भेमातुःपितुः	उ ६ २	१४ गिरर्णःपाहिनः	पू ३ १
१३ गव्योपुण्यायथा	पू २ २	५० गृणानाजम	उ १ १
२५ गायनित्वागायत्रि	पू ४ २	२९ गृणेतदिन्द्रते	पू ५ १
२६ गायनित्वा	उ ५ २	११६ गोत्रभिदं	उ ९ ३
११७ गायत्रैप्लुमं	उ ९ २	१०३ गोमन्नाइन्दो	उ ७ ३
६ गावउपवदावटे	पू २ १	४२ गोमन्नाइन्दोअश्व	पू ६ २
१०२ गावउपवदा	उ ७ ३	६६ गोवित्पवस्त्र	उ ३ २
२६ गावश्चिद्यास	पू ५ १	७१ गोषाइन्द्रोनृपा	उ ४ १
७१ गिरस्तइन्द्र	उ ४ १	१० गौद्रियतिमरुत्ता	पू २ २

घ

२७ घृतवतीभुवना	पू ४ २	९२ घृतंपवस्त्र	उ ६ ३
----------------	--------	----------------	-------

च

२४ चक्रंयदस्या	पू ४ १	२७ चर्पणीधृतमध	पू ४ २
३० चन्द्रमाश्रम्याङ्गत	पू ५ १	९ चित्रहच्छशो	पू १ २
७८ चमूषच्छेयनः	उ ५ १	४६ चित्रदेवानां	पू ६ ३

ज

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
२२ जगृते	पू ४ १	१०७ जरावोधत	उ ८ २
५८ जटिनवृत्तं	उ ३ १	२ जरावोधतद्विवि	पू १ १
६६ जज्ञानोवाचं	उ ३ २	७ जातःपरेणार्थम्	पू १ २
८८ जज्ञानःसम्	पू २ १	७८ जुष्टन्द्राय	उ ५ १
६३ जनस्यगोपा	उ ३ १	१४ जुष्टोहितोश्चासि	उ ६ १
६३ जनीयन्तोन्वग्र	उ ६ ३	७० ज्योतिष्ठास्यपव	उ ४ १

त

३६ तच्छदी	पू ६ १	३३ तामिन्द्रजोहवीमि	पू ५ ३
१०६ तक्षाथयापुरा	उ ५ १	४ तामिन्द्रवला	पू २ १
४५ ततोविराङ्गा	पू ६ ३	६ तामिन्द्रवाजयाम	पू २ १
४६ तत्त्वेयज्ञोअञ्जायत	पू ६ ३	८० तामिन्द्रवाजया	उ ५ १
९१ तत्त्वेयज्ञोअञ्जायत	उ ५ २	७६ तमीडिष्व	उ ४ २
९३ तत्सवितुर्वरे	उ ५ २	२८ अमुशभित्रगायत	पू ४ २
८ तदग्नेशुभ्नमाभर	पू २ १	९० तमुहत्वानूर्न	उ ५ २
६१ तदद्याचित्त	उ २ २	६१ तमुष्टवाम	उ २ २
१४ तदिदासास्तुवने	उ ५ ३	५४ तमुहत्वेवाज	उ ५ २
१०७ तदिप्रासोविप	उ ५ २	११७ तमोषधीर्दधिरे	उ २ २
१०७ तद्विष्णोपरमं	उ ५ २	६२ तयापवस्व	उ २ २
५ तद्विष्णोमसुते	पू २ १	१४ तरणिंद्रजनानां	उ २ २
१०७ तद्विष्णयसुते	उ ४ १	१६ तरणिरित्सपास	उ २ २
६१ तपोष्वित्रं	उ २ २	६० तरणिरित्सि	उ २ २
८८ तमग्निमस्ते	उ २ १	४६ तरणिर्विश्व	उ २ २
१०५ तमस्यमर्जया	उ ५ १	३६ तरत्समन्दी	उ २ २
८५ तमिन्द्रधन्तु	उ ५ २	७१ तरत्समन्दी	उ २ २

पृष्ठांक.	ग्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	ग्र. अर्थ.
६० तरत्समुद्रं	उ २ २	३४ तिसोवाजदीरते	पू ५ २
१६ तरोभिर्वोचिदद्वसु पू	उ ३ १	६० तिसोवाच	उ २ २
५१ तरोभिर्वो	उ १ १	६० तिसोवाच्चैरयति उ	उ २ २
७१ तवक्रत्वात्वो	उ ४ १	२९ तुञ्जेतुनायतत्सु	पू ५ १
८० तवत्यैन्द्रो	उ ५ १	५६ तुभ्येमामुवना	उ ३ १
१०५ तवत्यदिन्द्र्यं	उ ८ १	१५ तुभ्यंसुतासःस्येमाःपू	उ ३ १
३४ तवत्यन्नर्यं	पू ५ १	१०२ तुरुरयोगमधु	उ ७ ३
१०५ तवच्चौरिन्द्र	उ ३ १	११३ तुविशुष्म.	उ ९ १
८५ तवद्रप्साऽद	उ ५ २	११ तेआस्यसन्तुकेतवो उ	उ ८ २
११७ तवद्रप्सोनिलः	उ ४ २	६४ तेजाननतस्व	उ ५ ३
६७ तवश्रियो	उ ३ २	७६ तेनोद्विष्टिदिवः	उ ५ २
६४ तवाहंनकं	उ ३ १	७८ तेनःसहस्रिणं	उ ५ १
३७ तवाहंसोमरारण	पू ४ १	७३ तेषुतासो	उ ४ १
६४ तवाहंसोम	उ ३ १	४४ तेमन्वतप्रथमं	पू ५ ३
१८ तवेदिन्द्राव	पू ३ २	७० तेविश्वादाशुषे	उ ५ १
११७ तस्माश्ररंग	उ ४ २	११५ तेसुतासोविष.	उ ९ १
६८ ताश्रस्यनमसा	उ ३ २	७२ तेस्यामदेव	उ ५ १
६८ ताश्रस्यपृथना	उ ३ २	१०८ तोशाद्विहणा	उ ४ १
७६ तानोवाजवती	उ ४ २	७२ तोशासारथ	उ ४ १
९४ तानःशक्तपार्थि	उ ६ ३	१०० तंगूर्धयास्वर्णं	उ ८ २
७५ तानाशक्तं	उ ४ २	८८ तंगूर्धयास्वर्णं	उ ८ २
६७ ताभिरागच्छ	उ ३ २	६१ तंत्रमदृश्येमसि	उ ८ २
४५ तावानस्यमहिषा	पू ३ २	६३ तंत्रयवंथा	उ १ १
५७ तावांगीर्भिः	उ ३ २	३ तंत्वागोपवर्णो	पू १ १
६७ तावांसम्यक्	उ ३ २	६७ तंत्वाद्यृतस्न	उ २ १
६३ तासम्भ्राजाध्वता	उ ३ १	५७ तंत्वाधर्चार्दं	उ १ १
५७ ताहिषश्वन्त	उ ३ १	५४ तंत्वानुस्यानि	उ १ १
६० ताहुवेययोरिदं	उ २ १	७१ तंत्वामदाय	उ १ १
३८ तिसोईरयति	पू १ १		

पृष्ठांक	प्र.	अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र.	अर्थ.		
७२ तंत्राविप्रा	उ	४	१	५ त्वमग्नेगृहयति	पू	१	३
७३ तंत्राशोचिष्ठ	उ	४	१	६ त्वमग्नेयज्ञानां	पू	१	१
५० तंत्रासमिभि	उ	१	१	६४ त्वमग्नेयज्ञानां	उ	६	३
५१ तंदुरोषमभी	उ	१	१	७ त्वमग्नेवसूरिहत्	पू	१	२
१६ तंवोदस्ममृतोष	पू	३	१	९० त्वमग्नेसप्रथा	उ	६	२
५२ तंवोदस्म	उ	१	१	११० त्वमज्जप्रश्ना	उ	८	३
१०७ तंवोवज्ञानां	उ	८	२	१७ त्वमङ्गप्रश्नांसिषो	पू	३	२
४१ तंवःसखायोमदाय	पू	६	२	३ त्वमित्सप्रथा	पू	१	१
७२ तंवःसखायो	उ	४	१	१०४ त्वमिन्द्रप्रतूर्ति	उ	८	१
१०७ तंसखायः	उ	८	२	२२ त्वमिन्द्रप्रतूर्ति	पू	४	१
१०९ तंहित्वन्ति	उ	८	३	६ त्वमिन्द्रवलादधि	पू	२	१
८१ तंहित्वराजं	उ	५	२	१७ त्वमिन्द्रयशा	पू	३	२
९७ तंहोत्तारमध्वरस्य	उ	७	२	९० त्वमिन्द्रयशा	उ	६	२
२६ त्यमुवोअप्र	पू	४	२	६६ त्वमिन्द्राभिभू	उ	३	२
१२ त्यमुवःसत्रासाहं	पू	२	२	४४ त्वमिन्द्राष्वधीः	पू	६	३
१०९ त्यमुवःसत्रा	उ	८	२	८७ त्वमीश्विषेषुता	उ	८	१
२४ त्यमुवुवाजिनं	पू	४	२	४३ त्वमेतदधार्यः	पू	८	३
२७ त्यसुमेपमहया	पू	४	२	४३ त्वयावर्यपवमा	पू	४	३
२४ त्रातारमिन्दं	पू	४	२	२६ त्वयाहस्तिद्युजा	पू	५	१
३३ त्रिकटुकेषुमहिषो	पू	५	२	२१ त्वष्टानोदैवर्यं	पू	४	१
५३ त्रिकटुकेषु	उ	१	२	६३ त्वामग्नेअङ्गिर	उ	३	१
९४ त्रिकटुकेषु	उ	६	२	१ त्वामग्नेपुष्करा	पू	९	१
४२ त्रिपादर्हुउदैत्	पू	६	२	११३ त्वामिन्द्रवस	उ	८	१
४१ त्रिरथैसप्रथेन	पू	६	२	२१ त्वामिदाहो	पू	४	१
८१ त्रिरस्मैसप्रथेन	उ	६	२	५८ त्वामिदाहो	पू	३	१
८८ त्रिशद्रामवि	उ	६	२	८६ त्वामिदिहवामहे	पू	२	१
४६ त्रिशद्रामविराज	पू	६	२	५७ त्वामिदिहवा	पू	२	१
६८ त्रीणित्रितस्य	उ	३	२	१३ त्वावचेःपुरुषसो	पू	१	१
१०७ त्रीणिपदाविच	उ	८	२	१०० त्वांदूतमने	उ	७	१

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
७१ त्वांयद्वैरवीष्टध	उ ४ १	८१ त्वंयविष्टा	उ ५ १
६८ त्वांरिहन्ति	उ ३ २	६६ त्वंराजेवसुव्रतो	उ ३ २
७९ त्वांविश्वेद्यमृत	उ ४ २	८४ त्वंवरुणउत्त	उ ५ २
१०७ त्वांविष्णुर्वृहन्	उ ८ १	७३ त्वांविप्रस्त्वंकविः	उ ४ १
७७ त्वांशुभिन्	उ ४ २	५६ त्वंससमुद्रिया	उ २ १
३ त्वेत्रग्रेस्वाहुतः	पू १ १	११७ त्वंसिधूरचा	उ ८ १
६४ त्वेकत्तुमपि	उ ६ ३	८५ त्वंसुतोमदिन्तमो	उ ५ २
७३ त्वेविश्वेसजो	उ ४ १	८५ त्वंसुष्वाणोआद्रि	उ ५ २
७ त्वेपस्तेधूम	पू १ २	७१ त्वंसूर्येनश्राभज	उ ४ १
६७ त्वंसोमाधमा	उ ७ १	६६ त्वंसोमनृमा	उ ३ २
६८ त्वंचार्मिजनाना	उ ७ १	६७ त्वंसोमपरि	उ ३ २
९६ त्वंदाताप्रथमो	उ ७ १	८५ त्वंसोमासिधा	उ ५ २
६८ त्वंद्यांचमहि	उ ३ २	१०२ त्वंहत्यसप्तीनां	उ ७ ३
५३ त्वंनइन्द्रवाज	उ १ २	२३ त्वंहत्यतसप्तम्यो	पू ४ १
७६ त्वंनइन्द्राभर	उ ४ २	७ त्वंहित्ततवदशो	पू १ २
३० त्वंनइन्द्राभर	पू ५ १	७६ त्वंहिनःपिता	उ ४ २
३ त्वंनवित्रज्ञत्या	पू १ १	८७ त्वंहिराधस्	उ ५ २
१०४ त्वंनक्षित्र	उ ८ १	८१ त्वंहिशश्पतीना	उ ५ १
६६ त्वंनूचक्षा	उ ३ २	८३ त्वंहिशूरःसनिता	उ ६ २
६७ त्वंनोश्चनेऽर्थिन	उ ७ १	४२ त्वंत्याइङ्गदैव्यंपव	पू ६ २
१ त्वंनोश्चनेऽर्थिभि	पू १ १	६४ त्वंत्याइङ्गदैव्य	उ ३ १
१०१ त्वंपुरुसहस्राणि	उ ७ २	१६ त्वंत्येहिवेरवे	पू ३ १
८१ त्वंवत्स्यगोमतो	उ ५ २	१०१ त्वंत्येहिवेरवे	उ ७ ३

द

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
५० दविश्वतत्त्वा	उ १ १	१९ दूरादिहेव	पू ३ १
१०८ दानामृगोन	उ ८ २	१० देवानामिद्वौ	पू २ १
६६ दाशेषकस्य	उ ७ २	७८ देवेभ्यस्त्वा	उ ५ १
८१ दिवोधर्त्तासि	उ ५ १	८७ देवोद्रविवि	उ ७ १
७९ दिवोनाभा	उ ४ १	४ देवोद्रविणो	पू १ २
८० दिवापीयूपं	उ ५ १	१२ दोपोश्रागाहृह	पू २ २
७३ दीर्घिहंकश	उ ४ १	९१ युजांसदानुं	उ २ १
५० दुहानजर्थादिव्यं	उ १ १	११८ द्रप्सःसमुद्रं	उ ६ २
५४ दुहानःपत्न	उ १ २	११४ द्वितायोष्ट्रहन्त	उ ९ १
२ दूतवोविश्व	पू १ १	८५ द्विर्यपञ्चस्व	उ ५ २

ध

८० धर्त्तादिवःपव	उ ६ १	६४ धियाचक्रेव	उ ६ ३
४१ धर्त्तादिवः	पू ६ २	६५ धीभिर्पृजन्ति	उ ३ १
१५ धानावन्तकरं	पू ३ १	११७ धेतुष्टिन्द्र	उ ९ २
८१ धारायजर्थो	उ ५ १	७१ ध्वस्तयोःपुरु	उ ४ १

न

१४ नकिइन्द्रत्वदुत्तरं	पू ३ २	५३ नघेमन्यद्	उ १ २
१२ नकिदेवाइनीमसि	पू ३ २	३१ नतमंहोन	पू ५ १
९१ नकिरस्यसहन्त्य	उ ६ २	८ नतस्यमायया	पू २ १
७६ नकिष्टकर्मणा	उ ४ २	११५ नतेगिरोञ्चापि	उ ८ १
१७ नकिष्टकर्मणा	पू ३ २	२१ नत्वाहृहन्तो	पू ४ १
६५ नकिष्टवदथी	उ ३ १	५१ नत्वावाञ्छ्यो	उ १ १
८४ नकीरेवतं	उ ६ २	८० नत्वाशतञ्च	उ ५ १
१०७ नघावस्तुर्नियम	उ ८ २	६० नदुष्टिद्रवि	उ २ २

पृष्ठांक.	म. अर्धे.	पृष्ठांक.	म. अर्धे.
६७ नदंबओदती	उ ७ १	२३ नाकेसुपर्णे	पू ४ १
८३ नमस्तेदुपसी	उ ६ ३	७५ नाभानाभि	उ ४ २
२ नमस्तेऽभओजसे पू	१ १	७६ नाभियज्ञानां	उ ४ २
१०५ नमस्तेऽग्न	उ ८ १	७७ नित्यस्तोत्रो	उ ५ १
११७ नमःसत्तिभ्यः	उ ६ २	२ नित्वानल्य	पू १ १
४१ नयंदुवा	उ १ १	४ नित्वामनेमनु	पू १ १
८७ नराश्रंसपिह	उ ६ १	८१ निनेदिष्टतमा	उ ५ १
८३ नवयेनवर्ति	उ ६ ३	४४ नियुत्वान्वायवा	पू ६ ३
१८ नसीमदेव	पू ३ २	१०६ नीवशीर्षाणि	उ ८ १
१११ नसंस्कृतंप्रियि	उ ८ ३	६४ नूनोरायि	उ ३ १
५२ नहितेपूर्त्तपञ्चि	उ १ १	८४ नूनेपुनानां	उ ५ २
५३ नहित्वाश्वर	उ १ २	७६ नृचक्षसन्त्वा	उ ५ १
१६ नहित्वयरम्	पू ३ १	५३ नृभिर्वैतःमुतो	उ १ २
९७ नहारेद्गुप्तुराचन	उ ७ २	६० नृभिर्येमाणो	उ २ २
११८ नाकेसुपर्णे	उ ६ २	६४ नेमिनमन्त्रि	उ ३ १

प

८७ पदापणीनरा	उ ६ १	७६ परिनोआश्वं	उ ५ १
१०० पदंदेवस्य	उ ७ २	६३ परिनःशर्म	उ ३ १
१०६ पन्यंपन्यमित्	उ ८ ३	८८ परिमधन्वे	उ ६ १
६ पन्यंपन्यमित्सोतापू	२ १	३१ परिग्रन्थेन्द्राय	पू ५ १
१०० पन्यांसंजात	उ ७ २	३५ परिप्रासिष्य	पू ५ २
४२ परिकोशंमधु	पू ६ २	३४ परिप्रियादिवः	पू ५ २
१०७ परित्यंहर्यतं	उ ८ २	६४ परिप्रिया	उ ३ १
८५ परित्यंहर्यतं	उ ५ २	७४ परियद्वकान्या	उ ४ २
४० परित्यंहर्यतं	पू ६ २	३ परिवाजपतिः	पू १ १
३६ परिद्युक्षंसन	पू ६ १	६६ परिविश्वानि-	उ ३ १

पृष्ठांक	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक	प्र. अर्थ.
६३ परिष्कारवन्	उ ३ १	१०८ पवस्त्रमानादिवः	उ ८ २
८१ परिस्यस्वानो	उ ६ १	१०८ पवस्त्रमानासश्चा	उ ८ २
८४ परिस्वानथक्षसे	उ ५ २	३५ पवस्त्रमानोअग्नी	पू ५ २
३५ परिस्वानासइन्द	पू ६ २	६२ पवस्त्रमानोअग्नी	उ ८ ३
७४ परिस्वानास	उ ४ २	७५ पवस्त्रमानोअग्नी	उ ८ २
३४ परिस्वानोग्निरि	पू ५ २	६२ पवस्त्रमानोअग्नी	उ ८ ३
७३ परिस्वानो	उ ४ १	८१ पवस्त्रमानोरथी	उ ४ २
३७ परीतोपिञ्चता	पू ६ १	६१ पवस्त्रदक्ष	उ ३ १
८४ परीतोपिञ्च	उ ५ २	३४ पवस्त्रदक्षसाधनो	पू ५ २
८४ पर्वन्नःपिता	उ ५ २	३६ पवस्त्रदेवत्रायु	उ ५ २
३१ पर्युषपथन्वचाज	पू ५ १	८५ पवस्त्रदेवत	उ ५ २
८८ पर्युषपथन्व	उ ५ १	४१ पवस्त्रदेवतये	उ ५ २
१०४ पर्पितोकं	उ ५ १	८१ पवस्त्रदेवती	उ ५ १
४२ पवतेहर्यतो	पू ६ २	७० पवस्त्रदेवतीरति	उ ४ १
५५ पवतेहर्यतो	उ २ २	४२ पवस्त्रमधुमत्तम	पू ५ २
७९ पवतेवाज	उ ५ १	५१ पवस्त्रमधु	उ ५ १
६४ पवस्त्रमधिया	उ ३ १	३८ पवस्त्रमानश्चसु	१ १ १ १
८१ पवस्त्रमनितो	उ ६ १	५६ पवस्त्रवाचो	उ २ १
७९ पवस्त्रमवस्य	उ ६ १	६८ पवस्त्रवाज	उ ३ १
६२ पवस्त्रमनरसः	उ ३ १	३८ पवस्त्रवाजसात	उ ३ १
६३ पवस्त्रमनरुचा	उ ५ १	६३ पवस्त्रविश्वर्य	उ ३ १
८४ पवस्त्रमनव्यश्चुहि	उ ५ २	६६ पवस्त्रवृद्धहरत	उ ३ १
८३ पवस्त्रमनमुवीर्य	उ ५ २	९२ पवस्त्रवृष्टि	उ ५ १
८४ पवस्त्रमनस्यजिघ्न	उ ५ २	३२ पवस्त्रसोमद्युम्नी	पू ५ १
५० पवस्त्रमनस्यते	उ २ १	३८ पवस्त्रसोममधु	पू ५ १
६२ पवस्त्रमनस्यसो	उ ३ १	८१ पवस्त्रसोम	उ ५ १
५६ पवस्त्रमनस्यतेवयं	उ ३ १	३१ पवस्त्रसोममहान्	पू ५ १
६६ पवस्त्रमनस्यविश्व	उ ३ १	८५ पवस्त्रसोमवहे	उ ५ १
१०८ पवस्त्रमानाग्नष्ट	उ ३ १	३१ पवस्त्रसोममहे	पू ५ १

पृष्ठांकः	प्र. अर्धः	पृष्ठांकः	प्र. अर्धः
११६ पवस्वसाममन्दः	उ ९ १	७८ पुनानासश्च	उ ६ १
५६ पवस्वेन्दोवृषा	उ २ १	१०२ पुनानेतन्वा	उ ७ ३
३५ पवस्वेन्दोवृषा	पू ६ २	६४ पुनानोअक्रमीदभिः	उ ३ १
६१ पवित्रंते	उ २ २	३६ पुनानोअक्रमीत्	पू ६ १
४१ पवित्रंते विततं	पू ६ २	५९ पुनानोदेववीतं	उ २ २
७१ पवीतारः पुनी	उ ४ १	५६ पुनानोवरिवः	उ २ २
१०६ पाताहृत्रहा	उ ८ २	७२ पुनानोवारे	उ ४ १
४५ पात्यग्निर्विषा	पू ६ ३	७८ पुनानः कलशे	उ ६ १
६७ पात्नोभित्रा	उ ३ २	३७ पुनानः सोमधा	पू ६ १
११ पान्तमावोअन्धस	पू २ २	५० पुनानः सोम	उ १ १
५२ पान्तमावो	उ १ २	८१ पुराभिद्युवा	उ ५ १
११६ पावकवचाः	उ ६ २	२६ पुराभिद्युवाकवि	पू ४ २
१३ पावकानः सरस्वती	पू २ २	७६ पुरुत्राहिस	उ ४ २
८४ पावमानीदर्थ	उ ५ २	८ पुरुत्वादशिर्वा	पू २ १
८४ पावमानीर्यो	उ ५ २	४६ पुरुषेवेदसर्वे	पू ६ ३
८४ पावमानीस्वस्त्य	उ ५ २	५२ पुरुहूतं पुरुषतं	उ १ १
८४ पावमानीस्व	उ ५ २	५३ पुरुतमपुरु	उ १ २
२० पाहिङ्गाअन्धसां	पू ३ २	६७ पुरुलयाचिध्यं	उ ३ २
३ पाहिनोअग्नएकया	पू १ १	५१ पुरोजितीवो	उ १ १
६६ पाहिनोअग्न	उ ७ २	४० पुरोजितोवोअन्ध	पू ६ २
६६ पाहिङ्गाश्वास्मात्	उ ७ २	७६ पुरः सद्गृह्यता	उ ५ १
११४ पिवन्तिभित्रो	उ ८ १	४८ पूर्वस्थित्यते	महा० ४
१० पिवात्वा॒३स्य	उ ८ १	५८ पूर्वीरिन्द्रस्य	उ ३ १
१६ पिवासुतस्यरसि	उ ८ १	१०१ पौरोऽश्रवस्य	उ ७ ३
११ पिवासुतस्य	उ ८ १	६६ प्रकविदेव	उ ३ २
२९ पिवाससोममिन्द	उ ८ १	७४ प्रकाव्यमुशनेव	उ ४ २
६४ पिवासोम	उ ८ १	१८ प्रकाव्यमुशने	पू ६ १
१७ पुनरुर्जानि	उ ८ १	५ प्रकेतुनावृहता	पू १ २
७६ पुनानादक्षसा	उ ८ १		

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
४४ प्रकाशस्यवृष्टियोः	पू ६ ३	३७ प्रनदनंदोमहेतुन	पू ६ १
३९ प्रगायत्राभ्यर्चाम	पू ६ १	६६ प्रपवमान	च ३ २
८४ प्रजामृतस्य	उ ५ २	४२ प्रपुनानायवेष्वसे	उ ३ २
६२ प्रत्यञ्चिक्तिः	उ ३ १	६४ प्रपक्षयाय	उ ३ १
१०४ प्रत्यतेष्वद्य	उ ८ १	२६ प्रपवत्सिद्धभं	उ ४ २
२ प्रतित्यंचाह	पू १ १	६ प्रभूर्जयन्तं	उ ४ १
३० प्रतिप्रियतमर्थं	पू ५ १	४८ प्रभोजनस्य	महा०
१११ प्रतिप्रियतमं	उ ८ ३	६३ प्रभंगीश्वरो	उ ५ १
७२ प्रतिवांसूर	उ ८ १	३७ प्रगिन्नायग्रार्थं	उ ४ २
११० प्रतिष्यासूनरी	उ ८ ३	२७ प्रमंदिनेपितुः	उ ४ १
३८ पतुद्रवपरिकोशं	पू ६ १	८ प्रमंहिष्ठायग्रायत	उ ४ १
५० प्रतुद्रवपरि	उ १ १	६१ प्रमंहिष्ठाय	उ ४ २
५१ प्रतेष्वन्तोतु	उ १ २	३६ प्रयद्वावोनभूर्ण्य	उ ४ १
११२ प्रतधाराश्रसश्च	उ ८ ३	६२ प्रयद्वावोन	उ ४ १
३६ प्रतेष्वारामधु	पू ५ १	७५ प्रशुजावाचो	उ ४ १
८५ प्रतोसोतारो	उ ५ २	४ प्रयोदायेनिनी	उ ५ १
६६ प्रत्नंपीयूर्धं	उ ५ ७	२२ प्रयोरिरिक्तं	उ ५ १
७ प्रत्यग्नेहरसा	पू १ २	१८ प्रवद्वायवृह	उ ५ १
४६ प्रत्यद्वदेवालां	पू १ ३	६३ प्रवद्वाय	उ ५ १
६८ प्रत्यस्मैपिषी	उ ८ ३	११ प्रवद्वायमादन	उ ५ १
२५ प्रत्यस्मैपिषीष्वते	पू ४ २	३२ प्रवद्वायवृहत्र	उ ५ १
५४ प्रत्युच्छदशर्या	उ १ २	७६ प्रवाचमिन्दु	उ ५ १
२२ प्रत्युच्छदशर्याय	पू ४ २	७६ प्रवाज्यत्वाःसह	उ ५ १
४४ प्रथञ्चयस्य	पू ४ २	१०१ प्रवामर्चन्ति	उ ५ १
४१ प्रदेवमच्छा	पू ४ २	१०८ प्रवामर्चन्ति	उ ५ १
४४ प्रदेवोदासो	पू ४ २	१०२ प्रवामहिद्यवी	उ ५ १
४७ प्रदेवोदासो	उ ४ १	७६ प्रवोधियोमन्द	उ ५ १
४१ प्रधन्वासोम	पू ४ १	३४ प्रवोमहेमतयो	उ ५ १
७६ प्रधारामधो	उ ४ १	२३ प्रवोमहेमहे	उ ५ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.
११४ प्रवोमहेमहे	उ ६ १	७४ प्रस्वानात्सोरधा	उ ४ १
७५ प्रवोमित्राय	उ ४ २	३६ प्रहिन्वानोजनिता	पू ५ १
५ प्रवोयहंपुरुणां	पू १ २	८ प्रहोत्रेष्वर्य	पू ३ १
७३ प्रवोचोप	उ ४ १	६ प्रहोताजातोमहा	पू १ २
६ प्रसम्भ्राजपसुरस्य	पू १ २	७४ प्रहंसातस्तृप	उ ३ २
१० प्रसम्भ्राजंचर्ष	पू २ १	१०२ प्राचीमित्रुभ	उ ७ १
६७ प्रसविष्वेभिः	उ ७ १	४१ प्राणाशिशुर्महीनांपू	पू ६ २
७९ प्रमदेतदीरते	उ ६ १	६८ प्राणाशिशुर्मही	उ ३ २
४० प्रसुन्वानानायाग्न्यसोपू	पू ६ २	७ प्रातरपिनःपुरु	पू १ २
८९ प्रसुन्वानाय	उ ६ २	६५ प्रावीविपद्माच	उ ३ १
६५ प्रसुन्वानाय	उ १ २	११३ प्रास्यधारा	उ ८ १
३६ प्रसेनानीःशूरो	पू ६ १	१०४ प्रियोनोद्धस्तु	उ ८ १
८ प्रसोअग्रेतवो	पू २ १	११४ प्रेतानयता	उ ४ २
११६ प्रसोश्चेत्रे	उ ९ २	८८ प्रेद्योद्धग्नेदीदि	उ ६ १
३७ प्रसोमदेववीत	पू ६ १	८१ प्रेष्टवोअतिर्थि	उ ६ १
५४ प्रसोमदेव	उ १ २	१ प्रेष्टवोअतिर्थि	पू १ १
७६ प्रसोमयाहीन्द्रस्य	उ ४ २	३० प्रेहभीहि	पू ५ १
६६ प्रसोमासोअध	उ ३ २	४ प्रैतुव्रह्मण्यपतिः	पू १ २
३५ प्रसोमासोमद	पू ५ २	४० प्रोअयासीत्	पू ६ २
५६ प्रसोमासोमद	उ १ २	७६ प्रोअयासीत्	उ ४ २
३५ प्रसोमासोविष्विक्षि	पू ५ २	८० प्रोथदश्चोन	उ ५ १
५४ प्रसोमासोविप	उ १ २	११५ प्रोज्वस्मैपुरो	उ ६ १

व

११४ वद्यूयश्रवसा	उ ६ १	११३ वभ्रवेनुस्व	उ ६ १
११४ वण्महाँअसि	उ ९ १	११८ वलाविक्षायः	उ ९ १
१६ वण्महाँअसि	पू ३ २	१५ बृद्धकथंद्वा	पू ३ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.	पृष्ठांक.	प्र. अर्थ.
१८ बृहदिन्द्राय	पू ३ २	२३ ग्रसजग्नानं	पू ४ १
२ बृहदिन्द्रने	पू १ १	१० ग्रसप्रजावत्	उ ५ २
७ बृहद्योहिभानवे	पू १ २	२२ ग्रसाणाइन्द्रं	पू ५ ३
८५ बृहदिन्द्रिघ्म	उ ५ २	५० ग्रसाणारुच्चा	उ १ १
११८ बृहस्पतेष्ठि	उ १ २	६५ ग्रसादेवानां	उ ३ १
१० बौधन्मनाइद	पू २ १	१६ ज्ञानाणादिन्द्रराघ्य	उ ३ १
६४ बौधासुमे	उ ३ १		

भ

३३ भगोनचित्रो	पू ५ २	११ भद्रंमनःकुणुष्व	उ ७ २
१० भद्रावला	उ ६ २	७२ भरामेघ्यं	उ ४ १
८ भद्रोनोअनिराहु	पू २ १	७२ भिन्निविद्या	उ ४ १
४६ भद्रोनोअनिः	उ ७ २	१० भिन्निविश्वाअय	पू २ १
६४ भद्रोभद्र्या	उ ७ २	६१ भूयामतेसुपत्तौ	उ ६ २
१२० भद्रंणेभिः	उ ८ ३	११५ भूरिहितेसव	उ ८ १
३१ भद्रंनोअथि	पू ७ १	४५ भ्राजन्त्यग्ने	पू ६ ३
१२ भद्रंभद्रनाभरे	पू २ २		

म

७८ मयोनआपवस्त्र	उ ५ १	५८ मनीषिभिः	उ २ १
१०७ मयोनस्मृत्य	उ ८ २	१०९ मन्दन्तुत्वा	उ ८ ३
८२ मत्सवायुं	उ ८ २	३७ मन्द्रयासोम	उ ८ १
६१ मत्स्यपायिने	उ ८ २	६४ मन्द्रहोतारं	उ ८ २
५८ मत्सवासुशि	उ ८ १	४६ मन्येचांद्यावापुष्टि	पू ६ ३
७८ मदच्छुद्योति	उ ५ १	४४ मयिवचोअथो	पू ६ ३
४७ मधुमन्ततनून्	उ ६ १	११९ मर्माणितेवर्म	उ १ ३

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
८२ महत्त्वसोमो	उ ५ २	१०६ मानोअग्नेमहा	उ ८ १
३९ महत्त्वसोमो	पू ६ १	९३ मनोअक्षाता	उ ६ ३
८४ महाइन्द्रोय	उ ६ २	८ मानोहृणीथा	उ ८ २
११ महाइन्द्रः	पू २ ३	६३ मापापत्त्वाय	उ ३ १
७१ महान्तत्त्वामही	उ ४ १	१०२ मामेममाश्रमि	उ ७ ३
१३ महित्रीणामवर	पू २ ३	५७ मित्रंवयंहवामहे	उ २ १
१०२ महीमित्रस्य	उ ७ ३	५९ मित्रंहुवेपूत	उ २ २
७३ महीमेश्वरस्य	उ ४ १	५ मूर्धन्नंदिवोश्वर	उ १ २
२० महेचनतत्वा	पू ३ २	७५ मूर्धन्नंदिवो	उ ४ २
३१ महेनोअद्यवो	पू ६ १	१२० मृगोनभीमः	उ १ १
११० महेनोव्रद्य	उ ८ ३	७८ मृजन्तत्वा	उ ५ २
८० महेनोराय	उ ५ १	३७ मृज्यमानःसुह	पू ६ १
१६ माचिदन्यत्	पू ३ १	७२ मृज्यमानःसुहस्त्या	उ ४ १
८८ माचिदन्यत्	उ ८ १	२३ मेडिनत्वा	पू ४ १
१० मातेराधांसि	उ ८ ३	६७ मेधाकारंविद्	उ ३ २
५३ मात्त्वामूराश्वावि	उ १ २	१०७ मोपुत्त्वावाघ	उ ८ २
१८ मानइन्द्रपरा	पू ३ २	१६ मोपुत्त्वावाघत	पू ३ २
१५ मानइन्द्रपी	उ ८ १	५८ मोपुवस्त्रेव	उ २ १
६ मानइन्द्राभ्यार्थिदि	पू २ १		

य

१ यश्चानयत्परा	पू २ १	१०८ यजग्रहव	उ ८ २
७६ यश्चाजीकेपु	उ ४ २	१०९ यउग्रःसन्	उ ८ २
१०८ यहदंप्रति	उ ८ २	४२ यउस्त्रियाश्रमि	पू ६ २
७६ यहद्याविवा	उ ४ २	२८ यएकइद्विदयते	पू ४ २
११ यहन्देनपसेष्वा	पू २ २	८५ यएकइद्विदयते	उ ५ २
२६ यहन्दःसोमपा	पू ५ १	५८ यओजिष्ठास्तया	उ २ १
१७ यत्त्वतोचिदभि	पू ३ १	१०४ यज्ञिदिशशता	उ ७ ३

पृष्ठांक	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक	प्र. अर्ध.
१८ यच्छक्तासि	८ ३ २	६ यद्यकंच	८ २ १
६८ यजानोमित्रा	उ ७ १	८७ यदग्न्यमूरुषदिते	उ ६ १
२४ यजामहइन्द्रवज्र	८ ४ १	२० यदाकदाच	८ ३ २
११५ यनिष्टन्त्वायज	उ ९ १	७७ यदिन्द्रचित्र	उ ४ २
६१ यनिष्टन्त्वाववृ	उ ६ २	२५ यदिन्द्रचित्र	८ ४ २
८ यनिष्टन्त्वाववृमहे	८ २ १	१८ यदिन्द्रनाहुषी	८ ३ २
८? यज्ञायथाअपू	उ ६ २	१६ यदिन्द्रभाग्	८ ३ २
४४ यज्ञायथाअपूर्व	८ ६ ३	८० यदिन्द्रप्राग्	८ ५ १
९ यहइन्द्र	८ २ १	२२ यदिन्द्रयावत	८ ४ १
१०५ यज्ञाइन्द्रमवर्ध	उ ८ १	११४ यदिन्द्रयावतस्त्वं	उ ९ ?
९ यज्ञस्महिस्थ	८ २ १	२१ यदिन्द्रशासो	८ ४ १
६३ यज्ञस्यकेतुं	उ ३ १	८ यदिन्द्राहंयथा	८ २ १
७२ यज्ञस्यहिस्थ	उ ४ १	१७ यदिन्द्राहंयथा	उ ४ २
३ यज्ञायज्ञावोअग्न	८ १ १	१० यदिन्द्रोअनुयत्	८ २ २
५२ यज्ञायज्ञावो	उ १ १	६ यदिवीरोअनु	८ ३ २
७४ यज्ञायनस्तन्वं	उ ४ १	१११ यदीङ्गणस्य	उ ८ ३
१०० यज्ञनासोहवि	उ ७ २	२५ यदीवहन्त्याशवो	८ ४ २
८५ यतइन्द्रभयामहे	उ ५ २	६३ यदीसुतेभिः	उ ६ ३
१९ यतइन्द्रभया	८ ३ २	३० यदुदीरतआज	८ ६ १
७७ यत्तेदिक्षुप्रारा	उ ४ २	६८ यदुदीरत	उ ३ २
५२ यत्रकच्चतेमनो	उ १ १	१९ यद्याविन्द्र	८ ३ २
११९ यत्रवाणाःसंपतं	उ ८ ३	६० यद्याविन्द्रतेशतं	उ २ २
८६ यत्सानोस्सान्वा	उ ५ २	११२ यद्युज्जाधेनृपणं	उ ८ २
६८ यत्सोम	उ ५ ३	४६ यद्युवोहेयस्य	८ ६ २
२८ यत्सोमिन्द्र	उ ५ २	८ यद्याउविशपतिः	८ २ १
१०६ यथागौरोअपा	उ ५ ३	८० यद्यारुमेश्वरसे	उ ६ १
१७ यथागौरोअपा	उ ३ २	७ यद्याहिषु	८ ४ १
११७ यदेवातते	उ ८ २	७२ यदीदाविन्द्र	उ ४ १
५६६ यदस्त्रिःपरि	उ २ १	१४ यदीदाविन्द्रयत्	८ ३ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
७७ यन्मन्यसेवरे	उ ४ २	६७ यावांसन्तिपुरु	उ ३ २
८१ यमग्नेपृत्सुमत्यं	उ ६ २	११० यावित्थाश्लोक	उ ८ २
९८ ययामाआकरामहैउ	उ ७ १	११० यासुनीयेशौच	उ ८ ३
६७ यवंयवंनो	उ ३ २	६७ यास्तेधारा	उ ३ २
४५ यशोमाद्यावापृथिवीपू	६ ३ ३	८६ युद्धच्चाहिकेशिना	उ ५ २
८४ यश्चिद्गित्वा	उ ५ २	११० युद्धच्चाहिवाजिनीउ	उ ८ ३
६१ यस्तेइन्द्रनवी	उ २ २	२१ युद्धच्चाहित्र	उ ४ १
५३ यस्तेअनुस्थधा	उ १ २	८४ युज्जन्तिवधनमरुषं	उ ६ ३
६ यस्तेनूनं	पू २ १	५८ युज्जन्तिहरीइषि	उ १ २
५८ यस्तेमदेवरे	उ २ १	९४ युज्जन्तस्यकाम्या	उ ६ ३
६४ यस्तेमदो	उ ३ १	१७ युज्जेवाचंशत	उ ९ २
३४ यस्तेमदोवरेण्य	पू ५ २	१०५ युध्मेसन्तमनवी	उ ८ ३
५३ यस्तेष्टुग	उ १ २	५४ युवंचित्रददथुः	उ १ २
५९ यस्त्वामग्नेहवि	उ २ २	६८ युवंहिस्थस्व।	उ ३ २
६७ यस्माद्रजन्त	उ ७ १	१२ येतपन्थाअधो	पू २ २
९३ यस्मिनविश्वा	उ १ २	५६ येतेपवित्रम्	उ २ १
७३ यस्यतइन्द्रः	उ ४ १	९७ येत्वामिद्वन्तुष्टु	उ ७ १
५१ यस्यतेषीत्वा	उ १ १	६१ येनज्योतीष्यायवे	उ २ २
११३ यस्यतेमहिना	उ १ १	८४ येनदेवाःपवित्रेण	उ ५ २
७२ यस्यतेविश्वं	उ ४ १	५४ येनानवग्ना	उ ३ २
५६ यस्यतेसख्ये	उ २ १	४८ येनापावकचक्षसा	पू ५ २
१३० यस्यतिथात्वष्टुतं	उ ७ २	७६ येसोमासःपरा	उ ३ १
२४ यस्यत्यच्छम्बरं	पू ५ १	५० योअग्निदेवतीत	उ २ २
२९ यस्यायेविश्व	पू ५ १	११ योगेयोगेतवस्तरं	पू २ २
१०२ यस्यायंविश्वआयोउ	उ ७ ३	५३ योगेयोगेतव	उ १ १
४३ यस्येदमारजो	पू ३ ३	११७ योजागारतमृच्चः	उ १ १
१७ याइन्द्रयुज्जाभर	पू ३ २	६७ योजिनातिन	उ ३ १
५६-याताभीमान्या	उ २ १	५१ योधारयापाव	उ १ १
११० यादस्तासिंधु	उ ८ ३	२६ योनिदमिदंपुरा	पू ५ १

पृष्ठांक.	म. अर्ध.	पृष्ठांक.	म. अर्ध.
१२० योनास्वोऽरणो	उ ६ ३	११७ योवःशिवतमो	उ ६ ३
२२ योनिष्टुइन्द्र	पू ४ १	१०० यंचनासो	उ ७ ३
२४ योनेवनुध्यन्	पू ४ २	१३ यंरक्तनितप्रचेतसो	पू २ २
४८ योर्यंहिष्ठो	महा०	२४ यंद्वजेषुक्तियः	पू ४ १
२५ योर्यिंवोर्यिं	पू ४ २	८४ यःपावमानी	उ ५ २
६४ योराजावर्प	उ ३ १	१६ यःसत्राहाविच	पू ३ २
१९ योराजाचर्पणीनां	पू ३ २	७६ यःसोमःकलशे	उ ५ १
१०१ योविश्वादयते	उ ७ ३	८६ यःस्नीहितीषु	उ ६ २
३ योविश्वादयते	पू १ १		

र

५१ रक्तोहाविश्व	उ १ १	७२ रायाहिरण्या	उ ४ १
७१ रथिनश्चित्रं	उ ४ १	७ रायेश्चनेमहे	पू १ २
७२ रसन्तेमित्रो	उ ४ १	६१ रायःसमुद्रां	उ २ २
५७ रसायःपयसा	उ २ १	१११ रुशद्रृत्सा	उ ८ ३
६३ राजानावन	उ ३ १	११ रेवतीर्क्षःसधमा	पू २ २
७४ राजानोनप्रशस्ति	उ ४ ३	७२ रेवतीर्क्षः	उ ४ १
५९ राजामेधाभिः	उ २ २	११५ रेवाँइद्रेवतता	उ ९ १

व

११० वच्यन्तेवां	उ ८ ३	१८ वयमेनमिदा	पू ३ २
६ वयभिन्द्रत्वा	पू २ १	१०० वयमेनमिदा	उ ८ २
५३ वयमुत्त्वातदि	उ १ २	२६ वयश्चित्तेष्पत	पू ४ २
११ वयमुत्त्वातदिद	पू २ २	६० वयंघत्वा	उ २ २
३० वयमुत्त्वामपूर्व्य	पू ५ १	१८ वयघत्वामुत्ता	पू ३ २
५२ वयमुत्त्वाम	उ १ १	१६ वयंघातोऽपि	पू ३ २

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
८१ वयंतेऽस्य	उ ५ १	६६ विभक्तासि	उ ७ १
२३ वयःसुपर्णा	पू ४ १	१०८ विभूतराति	उ ८ २
६१ वरिवोधातमो	उ १ १	१०९ विभूपञ्चम	उ ७ २
५७ वरुणःप्राविता	उ २ १	२६ विभोष्टविन्द्रराध	पू ४ २
१०५ वपदत्वेविष्णु	उ ८ १	४६ विभ्राह्वृहत्	पू ५ २
४५ वसन्ताङ्गुरन्त्यो	पू ६ ३	९३ विभ्राह्वृहत्	उ ६ २
७३ वसुरग्निर्वसु	उ ४ १	६३ विभ्राह्वृहत्सुभृ	उ ६ २
८० वस्यांइन्द्रासि	पू ३ २	६६ विभ्राजज्ज्योतिषाड	उ ५ २
६७ वाचमष्टपदीं	उ ३ २	११४ विरक्षोविमृथो	उ ८ २
६४ वाजीवाजेषु	उ ६ ३	१०६ विव्यव्यमहिना	उ ८ २
१२ वातश्चावातुभेषजं	पू २ २	७ विशोविशोवोआति	पू १ २
११७ वातश्चावातु	उ ९ २	१०० विशोविशोवो	उ ७ २
६७ वातोपज्ञूत	उ ३ २	१०१ विश्वकर्मनहवि	उ ७ २
५२ वार्णत्वायव्याभिः	उ १ १	३२ विश्वतोदावन्	पू ६ २
६४ वाष्ठधानाःश्च	उ ६ ३	५९ विश्वस्याहत्	उ २ २
१०५ वायविन्द्रस्य	उ ८ १	३३ विश्वस्यप्रस्तोभ	पू ५ २
१०५ वायोशुक्रोत्रया	उ ८ १	६२ विश्वाधामानि	उ ३ १
४६ वाश्राअर्पन्तीन्दवः	उ ५ १	२६ विश्वान्नरस्यवस्पतिष्ठू	पू ४ २
१९ वास्तोव्यते	पू ३ २	१०४ विश्वेभिरन्ने	उ ८ १
५९ विघ्नन्तोहुरिता	उ २ २	२७ विश्वाःपृतनाअभिष्ठ	पू ४ २
१०६ विचिद्वृत्रस्य	उ ८ १	६४ विश्वाःपृतना	उ ३ १
५ वित्वदापोनपवे	पू १ २	४४ विश्वेदेवामम	उ ५ १
४८ विदादमयवन्	महा०	११५ विषुविश्वाअरा	उ ३ १
४८ विदारायेसुवीर्यं	महा०	१०७ विष्णोःकर्माणि	उ ८ १
५३ विद्माहित्वा	उ १ २	३३ विष्णुतयोयथा	उ ५ १
३१४ विषुद्वाणं	उ ८ १	११३ विष्णुतयोयथा	उ ५ १
२२ विषुद्वाणंसमने	उ ४ १	६० वीहुचिदा	उ ३ १
११६ विनहन्दमृथोजहि	उ १ १	६७ वीतिहोत्रन्त्वा	उ ७ १
३०३ विपश्चितेष्व	उ ७ ३	१०८ बृकथिदस्य	उ ८ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
१०६ बृत्रखादोवलं	उ ८ ३	५६ बृषासोम	उ २ १
२३ बृत्रस्यत्वा	पू ४ १	३५ बृषाहसिभानुना	पू ५ २
९९ बृषणांत्वावयं	उ ७ २	५६ बृषाहसि	उ २ १
३४ बृषापवस्त्रधार	पू ६ २	६८ बृषोअग्निःसमि	उ ७ ३
५७ बृषापवस्त्र	उ २ १	७९ बृषिदिवःपरि	उ ५ २
६८ बृषापुनानायां	उ ३ २	६४ बृषिद्यावारीत्या	उ ५ ३
४१ बृषामतीनाम्	पू ५ २	५६ बृषणस्तेष्वर्णयं	उ २ १
५८ बृषामतीनाम्	उ २ १	२९ वेत्थाहिनिर्घट्ती	पू ५ १
१०४ बृषायूथेव	उ ८ १	९४ वेत्थाहिवेदो	उ ६ ३
५७ बृषाशोणोअभि	उ २ १	१०५ व्याङ्नतरिक्षमति	उ ८ ?
३७ बृषासोमद्युमां	पू ६ १		

श

७२ शकेमत्वा	उ ४ १	६६ शुचिःपावक	उ ३ २
१७ शग्ध्यूऽषुशचीपत	पू ३ २	२३ शुरनंहुवेम	पू ४ १
१०१ शग्ध्यूऽषुशची	उ ७ ३	७० शुष्मभमानाश्रृता	उ ५ ३
२० शचीभिर्नः	पू ३ २	६८ शुभ्रमन्धो	उ ३ २
५७ शतानीकेव	उ २ १	९४ शुष्मीशधोन	उ ६ ३
१०२ शशमानस्यद्वानरः	उ ७ ३	९० शूरग्रामःसर्व	उ ५ २
११४ शकमनाशाको	उ ८ १	८० शूरोनधत्त	उ ५ १
५३ शाचिगोशाचि.	उ १ २	६३ शृणुतंजरितु	उ ५ १
१०५ शिक्षायाइन्द्र	उ ८ १	६३ शृणवेष्टिरिच	उ ५ १
११७ शिक्षेयमस्मै	उ ९ २	४ शेषेवनेषु	पू १ १
११९ शिक्षेयमिन्मह	उ ९ १	३ शान्तोदेवी	पू १ १
८५ शिशुंजज्ञानं	उ ५ २	३२ शंपदंमधंरयी	पू ५ २
७८ शिशुंजज्ञानं	उ ५ १	५३ शंसेदुक्यंसुदा	उ १ २
६ शुक्रंतेअन्यत्	पू १ २	२७ श्रतेदधामि	पू ४ २
८१ शुक्रःपवस्त्र	उ ५ १	१८ श्रायन्त्रिव	पू ३ २

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
२५ श्रायन्त्रिवसुर्य	उ ५ २	२५ श्रुधीहवंतिरश्च्या	पू ४ २
१४ ध्रुतंवोद्युत्वहन्त	पू ३ १	११५ श्रुधीहवंवि	उ ९ १
४ श्रुधिशुत्कर्ण	पू १ १	८ श्रुष्ट्यग्नेनवस्य	पू २ १
६१ श्रुधीहवन्तिरश्च्या	उ २ २		

स

१०० सद्धानोवसुः	उ ७ २	६३ सनइन्द्रांशिवः	उ ६ ३
११८ सद्गुहस्तैः	उ ९ ३	९२ सनजज्जेव्या	उ ६ ३
६४ सर्विरथोन	उ ६ ३	७१ सनाचसोमजेपि	उ ४ १
४१ सखायश्रानिषी	पू ६ ३	७१ सनाज्योतिः	उ ४ १
७६ सखायश्रानि	उ ४ २	७१ सनादक्षमुत	उ ४ १
२८ सखायश्राशिपा	पू ४ २	६ सनादग्नेमृणसि	पू १ २
५ सखायस्त्वाववृ	पू १ २	१०३ सनेभित्वमस्म	उ ७ ३
५८ संख्येतइन्द्र	उ २ १	१०५ सनोदूराच्च	उ ८ १
३१ सथ्रातंवृपणं	पू ५ १	७२ सनोगगाय	उ ४ १
५३ सधानोयोग	उ १ २	६४ सनोमन्द्राभिरध्वरेउ	६ ३
१०५ सधानःसूनुः	उ ८ १	१०७ सनोमहाँश्चनि	उ ८ २
२६ सधायस्तेदिवो	पू ४ २	१०६ सनोभित्रयह	उ ८ १
१८ सत्यमित्था	पू ३ २	११२ सनोविभा	उ ८ १
२४ सत्राहणं	पू ४ १	१०४ संनोदृपन्	उ ८ १
८२ सत्रितस्या	उ ५ २	८९ सनोवदोद्यमात्य	उ ८ १
५७ सत्वंनश्चत्र	उ २ १	१०३ सनोहरीणा	उ ७ ३
१२ सदसप्तिमद्वुतं	पू २ २	४९ सनःपवस्य	उ १ १
३२ सदागावःशुचयो	पू ५ २	५७ सनःपुनान	उ २ १
१४ सदावइन्द्ररच	पू ३ १	५० सनःपृथुश्रवा	उ १ १
८३ सदेवःकवि	उ ५ २	७६ सपवस्वमदिन्तम	उ ५ १
४३ सनइन्द्राययज्यवे	पू ६ ३	३६ सपवस्वयश्रावि	पू ६ १
५० सनइन्द्राय	उ १ १	८३ सपवित्रेविच	उ ५ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
८७ सपुत्रानउष	उ ६ १	१०६ सरूपवृषन्	उ ८ १
२५ सपूर्व्योमहोनां	पू ४ २	१०७ सरेवाँच्च	उ ८ २
४७ सप्तत्वाहरितो	पू ६ ३	८७ सवर्द्धिता	उ ६ १
११३ सप्तिष्ठजन्ति	उ ८ १	६६ सवन्दिरप्सु	उ ८ २
५४ सप्रथमेच्योमनि	उ १ २	८१ सवाजांच्चिच्च	उ ६ २
६१ सभक्षमाणोअसृत	उ ६ २	८३ सवाजीरोचनं	उ ६ २
७६ सप्तत्वार्थि	उ ५ २	७६ सवाज्जयक्षासह	उ ४ २
४४ सप्तन्यायन्त्वुप	पू ६ ३	७७ सवायुमिन्द्र	उ ४ २
८४ समन्हाविश्वा	उ ६ २	८८ सधीरोदक्ष	उ ६ ३
११२ समर्वजान	उ ८ ३	८३ सबृत्रहावृषा	उ ५ ३
१०० समस्यमन्यवेविशे	पू २ १	१०२ सव्यामनु	उ ७ ३
१०६ समस्यमन्यवे	उ ८ २	८३ ससुतःपीतये	उ ५ २
१११ समानोअध्वा	उ ८ ३	४२ ससुन्वेयोवसूनां	पू ६ २
१०८ सप्रामुजे	उ ८ २	७३ ससुन्वेयो	उ ८ १
१०० समिद्धमिंसभि	उ ७ २	४४ ससुनुर्मातरा	उ ८ १
७२ समिन्द्रेणोत	उ ४ १	११७ सहरस्यानि	उ ९ २
१०७ समिन्द्रोरायो	उ ८ ८	४६ सहस्रभाःसह	पू ८ २
६३ समीचीनाअनू	उ ८ ९	४६ सहस्रवृन्द	पू ८ २
७५ समीचीनास	उ ८ ९	४० सहस्रधारंवृष	उ ८ २
७६ समीचत्सन	उ ८ १	६१ सहस्रधारःपृष्ठ	उ ८ २
७१ समुदोअप्सु	उ ४ १	४५ सहस्रशीर्षाः	पू ८ २
५८ समुप्रियाअत्तु	उ ३ १	११५ सहिपुरुचिद्	उ ८ १
१० समुप्रियोमृज्यते	उ ६ १	६६ सहिष्माजारि	उ ३ १
६४ समुर्भासो	उ ३ १	८५ साकंजातःक्रतुना	उ ८ १
२७ समेतविश्वा	पू ४ २	३६ साकुलोमर्ज	पू ८ १
७५ सञ्चाजाया	उ ४ २	६१ साक्षुक्तो	उ ८ १
५४ सञ्चाजतेअन्तपा	उ १ २	६५ साकंजातः	उ ८ १
७४ सञ्चाजतउरु	उ ४ २	११० सानोअश्वाभर	उ ८ १

पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
६६ साहानिवशाश्रमि उ	७ ३	४० सोमाःपवन्तइन्द्र पू	६ २
१०२ सिङ्गचन्तिनमसा उ	७ ३	७३ सोमाःपवन्त उ	४ १
३० सीदन्तस्तेवयो पू	५ १	६० सोमगावो उ	२ २
६३ सुतएतिपवित्र उ	३ १	७ सोमंराजानं पू	२ २
६४ सुताइन्द्राय उ	१ २	६५ सोमःपवतेजनि उ	३ २
४० सुतासोमधुमत्तमा:पू	५ २	३८ सोमःपवते पू	५ ३
६१ सुतासोमधु उ	२ २	४२ सोमःपुनानज्ञमि पू	३ २
१४ सुनीथोधासमत्यों पू	३ १	६४ सोमःपुनान उ	३ २
१६ सुनोतसोमपा	४ २	७९ सोमःपुनानो उ	५ १
८७ सुप्राचीरस्तु उ	१ १	११ सोमःपूषाच्छेततु पू	२ २
१०६ सुभन्नमावस्त्री	१ १	११८ संकलनेन उ	३ ३
७२ सुरूपकृत्तुं	८ १	४४ संतेपयांसि पू	५ ३
११ सुरूपकृत्तुयूतये	२ २	६४ संदेवैशोभते उ	३ २
६३ सुवितस्य	१ १	६१ संमाहृभिर्वा उ	३ २
८७ सुविमिल्लोनआ	१ १	५८ संमिश्लोब्रह उ	१ १
११३ सुषहासोम	१ १	७३ संवत्सइवया उ	१ १
७३ सुष्वाणासो	४ १	५९ संवृक्तधृष्टयं उ	२ २
२८ सुष्वाणासइन्द्र	५ १	६० स्वरनितत्वा उ	२ २
८८ सूर्यस्येवरशयो	१ १	१२० स्वस्तिनइन्द्रो उ	१ १
११० सात्रगिनयोवसुः उ	८ १	३४ स्वादिष्टया पू	५ ३
६७ सोअर्थेन्द्राय उ	३ १	५१ स्वादिष्टया उ	४ १
३७ सोपउष्वाणःसोहु पू	५ १	३० स्वादोरित्याविष्ट पू	५ १
६७ सोमउष्वाणः	३ १	६८ स्वादोरित्या उ	२ १
७९ सोमाश्रम्यं पू	५ १	५० स्वायुधःपवते उ	१ १
६३ सोमानांस्वर उ	५ १	१०२ स्तोत्रंराधानां उ	७ ३
१० सोमानांस्वरणं पू	२ १		

ह


पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.	पृष्ठांक.	प्र. अर्ध.
४३ हस्तच्युतेभिः	उ ६ ३	५० हिन्वानोहेतुभिः	उ १ १
६३ हिन्वन्तिसूरं	उ ३ १	६४ होतादेवो	उ ६ ३
७४ हिन्वानासो	उ ४ २		

॥ इति ॥



वैदिक पुस्तकालय अजमेर की विक्रय पुस्तकों का सूचीपत्र व

बेचने के संक्षिप्त नियम ॥



(१) सब पुस्तकें रोक द्राम पेशागी भेजने पर या वी. वी. द्वारा भेजी जावेंगी
 (२) मूलवेदों पर (जिल्द की कीमत व मुनहरी वेदों को छोड़) २ सेट पर २०) २१ पर २२)
 (और १००) पर ३०) सैकड़ा आं रेष सब पुस्तकों पर १०) रुपये वा इस से अधिक
 के पुस्तक मंगवानेवालों को २०) सैकड़े के हिसाब से कमीशन दिया जायगा अर्थात् =) में
 १०) की पुस्तकें, १००) रोक भेजने पर १२२) की पुस्तकें भेजी जावेंगी (३)
 महसूल सब पुस्तकों का अलग लिया जावेगा (४) विक्रेते हुए पुस्तक वापिस न
 लिये जावेंगे (५) मूल्य आदि भेजने तथा बड़ा सूचीपत्र मंगवाने के लिये नीचे लिखे
 पते से पत्र व्यवहार करें ॥

मूल्य डा.	मूल्य डा.
ऋग्वेदभाष्य पहले मंडल से सातवें मंडल के पांचवे अ- ष्टकके पांचवे अध्याय से तीसरे वर्ग के दूसरे मंत्र तक कीमत १०)	यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण १०) कमीशन २०) सैकड़े से दिया जावेगा नोट—फुटकर नहीं बेचे जावेंगे चारों मूलवेदः—
कमीशन २०) सैकड़ा दिया जावेगा	वृद्धिया कागज पर स्वर्णाक्षरों में ८) वृद्धिया कागज पर बिना जिल्द ४॥)
नोट—फुटकर अंक नहीं बेचे जावेंगे	साधारण कागज पर बिना जिल्द ५)
ऋग्वेद का आगे का शेष मूल भाग १)	वृद्धिया जिल्द के २) अलग चारोंवेदों की अनुक्रमणिका १॥) =)॥
ऋग्वेदभाष्य फा नमूला)॥)॥	शतपथ ब्राह्मण सम्पूर्ण ४) १) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका १।) =)

मूल्य. डा.		मूल्य. डा.
श्रद्धेदादिभाष्य भूमिका सजिल्द १() ।।		वेदान्तध्वन्तनिवारण नागरी ॥१॥ ॥१॥
वेदाङ्गप्रकाश संगुर्ग (३४भाग) २(=) ॥१॥ ॥१॥		वेदान्तध्वन्तनिवारण श्रुतेर्जी १, ॥१॥
वेदाङ्गप्रकाश का व्योराः—		श गंगांशनगवगाला नागरी ॥१॥ ॥१॥
वर्णांश्चाणग शिक्षा	॥३॥ ॥१॥	आर्यांश्चश्वरवाप्त्य मरुटी १, ॥१॥
सन्धिरूपय	१) ॥१॥	गांकरणानिधि १, ॥१॥
नागिक	१) ॥१॥	वार्मा न गयणमनग्ने० संगुत युज. ॥१॥ ॥१॥
कारकीय	२) ॥	सामां नागयणमनग्ने० गै० नागरी ॥१॥ ॥१॥
सुगासिक	१) ॥१॥	समन्तन्यायन्तन्यप्रकाश नागरी ॥१॥ ॥१॥
स्नैणताड्हिन	॥२॥ २)	समन्तन्यायमन्यप्रकाश श्रुतेर्जी ॥१॥ ॥१॥
शब्दव्याख्य	२) ॥१॥	आर्यांभिविनय युट्का २, ॥१॥
संवर	२) ॥१॥	आर्यांभिविनय सजिल्द १, ॥१॥
आन्यानिक	१) ॥२)	आर्यांभिविनय मोटे अक्षरों का ॥२॥ ॥२॥
पारिभाषिक	२) ॥१॥	आन्तिनिवारण १, ॥१॥
धातुपाठ	१) ॥१॥	पञ्चमहायज्ञविधि १) ॥१॥
गणपाठ	२) ॥१॥	पञ्चमहायज्ञविधि साधारण जिल्द ३) ॥१॥
उणादिकोष	२) ॥२)	पञ्चमहायज्ञविधि बहिया २) ॥१॥
निवण्टु	१) ॥१॥	आर्यसमाज के नियमोपनियम ॥१॥ ॥१॥
निरुक्त	॥२॥ २)	सत्यार्थप्रकाश साधा० कागज़ नागरी १) ।।
अष्टाध्यायीमूल	२) ॥१॥	सत्यार्थप्रकाश तात्या० सजिल्द , ॥१॥ १)
संस्कृतवाक्यप्रवोध	२) ॥१॥	सत्यार्थप्रकाश बहिया , , ?!!! ॥१)
अवदागभानु	२) ॥१॥	सत्यार्थप्रकाश बहिया सजिल्द , ॥१॥ ॥१)
हवनमन्त्र	१) ॥१॥	सत्यार्थप्रकाश बज्जभापा मे ?)
भ्रमोच्छेदन	१) ॥१॥	संस्कारविधि ॥१॥ २)
अनुभ्रमोच्छेदन	१) ॥१॥	संस्कारविधि सजिल्द ?) ॥१॥
शास्त्रार्थ मेला चांदापुर नागरी	२) ॥१॥	स्वीकारपत्र)। ॥१॥
शास्त्रार्थ मेला चांदापुर उर्दू	२) ॥१॥	आर्यसमाज के नियम नागरी में एक प्र-
रामार्थ काशी	१) ॥१॥	कार की स्याही में =॥। रौकड़ा, रज़ विरज़ी
शास्त्रार्थ फीरोज़ावाद	२) ॥१॥	स्याही में तथा सुनहरी २) सैकड़ा, अज्जरेज़ी
वेदविरुद्धमतस्थण्डन	=) ॥	में सफेद कागज़ पर ।। सैकड़ा ॥

